



देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया



वर्ष: 12 अंक: 260 पृष्ठ: 12

RNI : HPHIN/2012/48072



actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड

फास्ट न्यूज

उज्जैन दुर्घम मामला : मुख्य आरोपी ने की भागने की कोशिश

उज्जैन : उज्जैन दुर्घम मामले में पुलिस की गिरफ्तार से एक आरोपी ने गुरुवार को भागने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और पुलिस ने उसे दबोच लिया।
क्राइम सीन रीक्रिएट के दौरान भागने की कोशिश : पुलिस ने बताया कि आरोपित भारत सोनी ने क्राइम सीन रीक्रिएट करने के दौरान भागने की कोशिश की, जिसमें वह गिर गया और उसके पांव में चोट लग गई। पुलिस ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि आज हम क्राइम सीन को रीक्रिएट करने और लड़की द्वारा पहने गए कपड़े बरामद करने के लिए मौके पर पहुंचे। भरत सोनी ने भागने की कोशिश की। पुलिस कमियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आरोपी गिर गया और उसके हाथ और पैर में चोट आई।

गुरुग्राम के पब, बारों में हुक्के पर पूर्णतया प्रतिबंध

टीम एक्शन इंडिया/गुरुग्राम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों के अनुसार अब गुरुग्राम के पब, बार में हुक्के पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। आबकारी विभाग ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पब, बार पर कार्यवाही के लिए टीमों का भी गठन कर दिया है। उप-आबकारी आयुक्त अमित भाटिया के मुताबिक गुरुग्राम के सभी 270 पब, बार पर बारी-बारी से जांच की जाएगी।

'इंडिया' में दिखने लगी दरारें

= कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को आठ साल पुराने केस में गिरफ्तार किया, खैहरा के खिलाफ 2015 के इग्गस मामले में जांच चल रही थी, पंजाब कांग्रेस ने काटा बवाल

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़ पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को आठ साल पुराने केस में गिरफ्तार किया है। खैहरा के खिलाफ 2015 के इग्गस मामले में जांच चल रही थी। इसमें डीआईजी के नेतृत्व में बनी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी में दो एसएसपी भी शामिल रहे हैं। जलालाबाद पुलिस ने वर्ष 2015 में मार्केट कमेट्री दिल्ली के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देसी .315-बोर पिस्तौल, दो पाकिस्तानी सिम कार्ड और एक टाटा सफारी कार बरामद हुई थी। इस मामले में मार्केट कमेट्री दिल्ली के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह के साथ कथित संबंधों के कारण खैहरा का नाम सामने आया था। खैहरा के साथ-साथ निजी सुरक्षा अधिकारी जोगा सिंह, निजी सहायक मनोष, बाट गांव (जालंधर) का एक व्यक्ति, एनआरआई युके निवासी चरणजीत कौर और बाजवा कलां गांव (जालंधर) के मेजर सिंह बाजवा का नाम भी मामले में सामने आया था। गुरुवार को चंडीगढ़ डीएसपी जलालाबाद एआर शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। खैहरा पुलिस अधिकारियों से बार-बार अरेस्ट वारंट की मांग करते दिखे। खैहरा का आरोप है



आप पर कांग्रेस ने लगाए 'बदलाखोरी' के आरोप

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़ इसे देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहले ही कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर अपनी व्यक्तिगत राय न व्यक्त करने के आदेश दे दिए थे। हाईकमान के निर्देश पर भले ही पंजाब के नेता पिछले कुछ दिनों से चुप थे लेकिन खैहरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बदलाखोरी की राजनीति करने का आरोप लगा दिए हैं। खैहरा को पुलिस ने जिस तरह से सुबह छह बजे उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया उससे भी कांग्रेसियों में

गुस्सा है। अब इसका सीधा असर इंडिया पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि आप सरकार ने पहले ही न सिर्फ कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को जेल भेजा है। बल्कि एक दर्जन के करीब विधायकों के खिलाफ विजिलेंस की जांच व उन्हें गिरफ्तार किया है। जिसका असर आईएनडीआई पर पड़ना तय है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा अपने विधानसभा क्षेत्र काटियां से वापस चंडीगढ़ पहुंच गए।

सरकार को बदले की भावना को छोड़ना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में गुस्सा: खैहरा की गिरफ्तारी भी ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस हाईकमान प्रदेश इकाई के विरोध के बावजूद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट

घमासान

8 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप के साथ होने वाले संभावित गठबंधन पर भी पड़ना तय माना जा रहा

इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दल आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। खैहरा न सिर्फ भुलत्थ से कांग्रेस के विधायक हैं बल्कि कांग्रेस किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। खैहरा लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। खैहरा की गिरफ्तारी के कारण एक तरफ जहां किसान सेल के प्रदेश प्रधान किरनजीत सिंह सिद्धू का पद संभालने का कार्यक्रम रद्द हो गया। वहीं, पूरी कांग्रेस में गुस्से की लहर दौड़ रही है।

संभावित गठबंधन पर पड़ सकता है असर: कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा अपने विधानसभा क्षेत्र काटियां से वापस चंडीगढ़ पहुंच गए। प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर खैहरा के साथ खड़े होने की बात कही। कांग्रेस में बढ़े हुए गुस्से का असर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप के साथ होने वाले संभावित गठबंधन पर भी पड़ना तय माना जा रहा है।



कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित फर्नीचर मार्केट पहुंचे और वहां कारीगरों से मुलाकात की। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की।

खनिज उत्पादन जुलाई में 10.7 फीसदी बढ़ा

टीम एक्शन इंडिया/नई दिल्ली देश का खनिज उत्पादन जुलाई महीने में सलाना आधार पर 10.7 फीसदी बढ़ा है। खान मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के हवाले से बताया कि जुलाई 2023 के लिए खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 111.9 पर था, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 10.7 फीसदी ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जुलाई में कुल वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.3 फीसदी है। जुलाई में महत्वपूर्ण खनिजों में कोयले का उत्पादन 693 लाख टन रहा। लिग्नाइट का उत्पादन 32 लाख टन, पेट्रोलियम (कच्चा) 25 लाख टन, बॉक्साइट 14,77,000 टन और क्रोमाइट का उत्पादन 2,80,000 टन रहा।

सीएम ने यूएई के प्रवासी हिमाचलियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया

टीम एक्शन इंडिया/शिमला/चमन शर्मा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने वचुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आवेष्टित किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी मुख्यमंत्री ने

निमंत्रण

8 हिमाचल उनका घर है और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में सरकार हरसंभव मदद प्रदान करेगी

राज्य की समृद्ध संस्कृति के अग्रदूत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हरसंभव मदद प्रदान करेगी।

एक्शन इंडिया परिवार की तरफ से
समाजरत्न वरिष्ठ समाजसेवी
श्री हेमराज बंसल जी को उनके
84वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई

राष्ट्रीय अध्यक्ष- राजभाषा संघर्ष समिति (पंजी) दिल्ली

प्रधान : नरेला विकास संगठन (रजि.), नरेला

चेयरमैन- मेन बाजार मर्चेन्ट्स एसो. (रजि.) नरेला

चेयरमैन- अग्रवाल वैश्य समाज (रजि.) नरेला

संस्थापक- लाला जगन्नाथ बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) नरेला

संरक्षक- लाला बलदेव सहाय चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) नरेला

ट्रस्टी- संत परमानंद साधु आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.)

ट्रस्टी- श्री मास्वति नंदन धर्मशाला ट्रस्ट (रजि.) मेहन्दीपुर बालाजी

ट्रस्टी- श्री गुरुनानक सांझी विरासत चैरिटेबल ट्रस्ट, नरेला

ट्रस्टी- अग्रकेसरी महाकुटुंब (अन्तर्राष्ट्रीय)

ट्रस्ट, दिल्ली (पंजी.) भारत

ट्रस्टी- राकेश भारद्वाज मैमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली

संरक्षक- विश्व मानव हनुमान सरस्वती शिशु मंदिर, नरेला

सदस्य- अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, दिल्ली

सदस्य- दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली



श्री हेमराज बंसल

सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी, भारत सरकार

बन्सल गारमेन्ट्स, 147, मेन बाजार, नरेला

बन्सल टेक्सटाईलज, 166-1 मेन बाजार, नरेला

बन्सल किचन केयर, ई-3 अलीपुर रोड़, नरेला

बन्सल कियेरन्ज, 145, मेन बाजार नरेला, 9810639093

ऊना में मतदाता चेतना अभियान का हुआ आगाज

प्रत्येक बूथ से कम से कम 50 मतदाताओं को किया जाएगा तैयार

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा के संगठनात्मक क्रियाकलापों को तेज करते हुए बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए विभिन्न अभियान शुरू किए गए हैं। मतदाता चेतना अभियान का आगाज करते हुए वीरवार को भाजपा के जिला कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलवीर चौधरी के नेतृत्व में इस अभियान को शुरू किया गया। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर और एचपीएसआईडीसी के पूर्व उपाध्यक्ष रामकुमार भी मौजूद रहे। भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवीर



चौधरी ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 मतदाता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसी अभियान के तहत पांचों मंडलों में संयोजकों को नियुक्त करते हुए बूथ सशक्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां में नए

शामिल होने वाले नाम को लेकर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में स्थान दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूकता से काम करना होगा। इसके अतिरिक्त जिन बेटियों की शादी हो चुकी है या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम

मतदाता सूचियां से हटवाने को लेकर भी जागरूकता के साथ काम करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया जा रहा है और उसमें नेताओं से लेकर

अभियान

8 पांचों मंडलों में संयोजकों को नियुक्त करते हुए बूथ सशक्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ किया

कार्यकर्ताओं तक सभी की भूमिका निश्चित की गई है। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री शाम मिन्हास, राजकुमार पटानिया पांचों मंडलों के अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल, रविंद्र द्विवेदी, गुलबिंदर गोल्डी, राजीव राजू बा चरणजीत शर्मा, एडवोकेट राजेश चौधरी, एडवोकेट खडक सिंह, धर्मेन्द्र राणा, विजय शर्मा, आईटी सेल जिला संयोजक चंदन कालिया, पांचों मंडलों के संयोजक वा सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे।

ग्लोरी पब्लिक स्कूल बामटा में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया



टीम एक्शन इंडिया/बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर विश्व रेबीज दिवस का आयोजन बुधवार को ग्लोरी पब्लिक स्कूल बामटा में प्रधानाचार्य अशोक लता की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें हेल्थ एजुकेटर विजय कुमार और अन्य स्टाफ ने बच्चों को रेबीज के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की रेबीज क्या है कैसे होती है इससे बचाव के तरीके बताए। उन्होंने कमबद्ध इसके बारे में

जानकारी देते हुए बताया कि रेबीज का दूसरा नाम जलन तक है यह जंगली तथा पालतू जानवरों के बुधवार को ग्लोरी पब्लिक स्कूल बामटा में प्रधानाचार्य अशोक लता की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें हेल्थ एजुकेटर विजय कुमार और अन्य स्टाफ ने बच्चों को रेबीज के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की रेबीज क्या है कैसे होती है इससे बचाव के तरीके बताए। उन्होंने कमबद्ध इसके बारे में

जा रहा है जिसका उद्देश्य लोगों को रेबीज के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा अरबी जैसी भयंकर जानलेवा बीमारी से लोगों को बचना है यह राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के कारण होता है जो पागल जानवर कुत्ता, बिल्ली, बंदर चमगादड़ आदि की लार में मौजूद होता है। यह हमेशा किसी संक्रमित जानवर के काटने के बाद फैलता है जिससे घाव में लार और वायरस जमा हो जाते हैं।

न्यूज प्लैश

कुटलैहड़ विधायक विस के अंदर व बाहर कर रहे अनपढ़ों जैसा व्यवहार: कवर

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजनपुरी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ के विधायक देवेन्द्र कुमार भुट्टो को विधानसभा में लगाए गए आरोपों के चलते अनपढ़ करार दिया है। वीरवार को ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने विधायक पर एक के बाद एक कई आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर विधायक के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करवाएंगे। वहीं विधायक के आरोप सही साबित होने पर राजनीति से सन्यास लेने की भी बात कही। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि विधायक अनपढ़ों के जैसा व्यवहार विधानसभा के अंदर और बाहर कर रहे हैं। उन्होंने विधायक से सदन को गुमराह करने के लिए माफी मांगने की भी कहा। कांग्रेस विधायक देवेन्द्र भुट्टो ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुटलैहड़ में पूर्व सरकार के समय हेरा फेरी किए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विधानसभा क्षेत्र में ट्रेक्टर, बकरी, मुर्गी और गाय आबंटन में गड़बड़ी की गई है। जिसमें करोड़ों रुपये का गड़बड़झाला होने की बात कहते हुए चर्चे को रेवडियां बांटने का आरोप लगाया था। यहां तक की उन्होंने आरोप गलत होने पर सजा भुगतने की भी बात कही। पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अशुरी जानकारी और बिना जानकारी के ही बयान जारी कर देना विधायक की पुरानी फितरत में शुमार है। उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे टेंडर हैं, जिनमें वर्तमान सरकार के समय गड़बड़ घोटाले किए गए हैं। पूर्व सरकार के समय किए गए टेंडरों को भी रद्द करके नए सिरे से अपनों को बांटने का काम वर्तमान सरकार में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ उनका गहरा नाता रहा है। चार बार के विधायक होने के नाते उन्होंने सदैव विधानसभा क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया।



इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस में टोयोटा किलॉस्कर मोटर ने विशेष प्रयोजन वाली हाईलक्स का प्रदर्शन किया

इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस में टोयोटा किलॉस्कर मोटर ने विशेष प्रयोजन वाली हाईलक्स का प्रदर्शन किया

शिमला: टोयोटा किलॉस्कर मोटर (टीकेएम)ने इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस (आईपीएसीसी)या इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान टोयोटा हाईलक्स का प्रदर्शन किया। इसे इसके अधिकृत बाहरी विक्रेता के माध्यम से अनूठे ढंग से संशोधित किया गया है। साइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के सहयोग से भारतीय सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा आयोजित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उसी समय होता है जब इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस (आईपीएसीसी) इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार (आईपीएमएस)और सीनियर पनलिस्टेड लीडरशिप फोरम (एसईएलएफ या सेल्फ)का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मलेन के मौके पर एक सामान्य उद्देश्यीय हाईलक्स का भी प्रदर्शन किया गया था। इस हाई प्रोफाइल फोरम में टोयोटा की भागीदारी रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी तकनीकी शक्तियों के साथ नवीन समाधान प्रदान करने और अन्य विशेष ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप टीकेएम ने आईपीएसीसी में हाईलक्स टोयोटा सर्विस एक्सप्रेस (टीएसई)मोबाइल सर्विस वाहन के माध्यम से बहुमुखी हाईलक्स का प्रदर्शन किया। टोयोटा किलॉस्कर मोटर के स्ट्रेटिजिक बिजनेस यूनिट (उत्तर)के महाबन्धक,वी विसलिपि सिगमानी ने कहा कि इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन को चिह्नित करते हुए टोयोटा को एक विशिष्ट डिजाइन वाले हाईलक्स को प्रदर्शित करने पर गर्व है जिसे एक अधिकृत बाहरी विक्रेता के माध्यम से संशोधित किया गया है। यह लैटेंटॉर्म हमें विभिन्न ग्राहकों की विशेष वाहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक समाधान पेश करने में अपनी तकनीकी कौशल दिखाने की अनुमति देता है।

अनुराग की पहल सांसद मारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए संसदीय क्षेत्र से 21 लड़कों का हुआ चयन

टीम एक्शन इंडिया/शिमला/चमन शर्मा केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल, सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चर्चित हुए 21 लड़कों की सूची घोषित कर दी गई है। संसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है, जोकि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। पिछले 5 सालों में 101 बच्चों को यह यात्रा करवा चुके हैं अनुराग ठाकुर, और अब 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, चर्चित 21 लड़कों के लिए सांसद भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली दर्शन के साथ, यह शुभ विशेष रूप से गुजरात वरै पर जाएगा। 21 छात्रों के साथ 2 एक से श्रेष्ठ अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। एक से श्रेष्ठ, अनुराग सिंह ठाकुर की पहल है,जिसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है



एक से श्रेष्ठ अध्यापिकाओं के अंतर्गत भारत भ्रमण पर छात्रों के चयन के लिए के निर्दिष्टताओं का चयन किया गया है।

रोजगार का अवसर भी मिला है और 9000 से भी अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल रही है। केंद्रों में बच्चों को प्रतियोग प्रोटीन मिल्क शेक भी दिया जाता है और डिजिटल उपकरण जैसे लैपटॉप और लॉजिंग किट द्वारा बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। जहां एक से श्रेष्ठ के लिए अनुराग ठाकुर न, हमारा संकल्प हमारा प्रयास, सबको शिक्षा सबका विकास का नारा दिया है, वहीं छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित सांसद भारत दर्शन के लिए, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया है। छात्रों का चयन एक प्रतियोगी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। सांसद भारत दर्शन यात्रा 2023 के लिए जिन बच्चों ने 2021, 2022 या 2023 में बारंबार पास करी हो और पढ़ाई/खेल/कला आदि क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया हो, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते

अर्न्तराष्ट्रीय मानचित्र पर उमरेगी बंदला पैराग्लाइड साईट आर्य नगर में एक शिक्षक के घर में हुई चोरी

टीम एक्शन इंडिया/बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर बंदला पैराग्लाइड साईट अधिसूचित होने से जहां बिलासपुर अर्न्तराष्ट्रीय मानचित्र पर विशेष रूप से उभरेगा वहीं पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा। उपयुक्त एवं अध्यक्ष बंदला पैराग्लाइडिंग रेगुलेटरी कमेटी आबिद हुसैन सादिक ने न्यायक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने के उपरत यह पहली बैठक है जिसमें पैराग्लाइडिंग को सुचारू



रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न मानकों पर चर्चा की गई। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मार्शल की नियुक्ति तथा पैराग्लाइडिंग के

लिए दूरें तय करने बारे बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई। पैराग्लाइडिंग युजर चार्जिस के संबंध में भी बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया

अंब में दो युवकों से चिट्ठा बरामद

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजनपुरी थाना अंब के तहत आदर्श नगर के शिव मंदिर के पास से पुलिस ने दो युवकों का चिट्ठा संग्रह किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अंब पुलिस बुधवार देर शाम आदर्श नगर शिव मंदिर के पास गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी लेने पर पुलिस ने दिलवर सिंह निवासी जिला हमीरपुर व मोहित कुमार निवासी अंब को चिट्ठा संग्रह किया। पुलिस ने

60 स्वानों को लगाए निशुल्क टीके

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजनपुरी विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य पर नगर परिषद मैहतपुर बसदेहडा ने दो युवकों का चिट्ठा संग्रह किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अंब पुलिस बुधवार देर शाम आदर्श नगर शिव मंदिर के पास गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी लेने पर पुलिस ने दिलवर सिंह निवासी जिला हमीरपुर व मोहित कुमार निवासी अंब को चिट्ठा संग्रह किया। पुलिस ने



रोकथाम के उपायों बारे जागरूक किया। उन्होंने रायपुर सहोडा, चडतगव, बसदेहडा, मैहतपुर गांव व भटोली सहित अन्य पंचायतों में जाकर विचार शिविर

गया जिस पर जल्द ही निर्णय लेकर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में उभरकर सामने आएगा। बैठक में मनोज कुमार जिला पर्यटन विकास अधिकारी मंडी, प्रकाश चंद आजाद संयुक्त निदेशक अटल बिहारी पर्वतीय संस्था एवं खेल संस्थान मनाली, रिदेश पटियाल सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, सहित आदि उपस्थित रहे।



टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजनपुरी

शहर के वाई नंबर एक के आर्य नगर में शतिरों द्वारा एक महिला शिक्षक के घर से चोरी करने का मामला सामने आया है। शतिरों ने घर का ताला तोड़कर 2 सोने के आभूषण सहित नगदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने महिला शिक्षक की शिकायत के आधार पर अज्ञात शतिरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सुनीता कुमारी पत्नी विकास चंद निवासी आर्य नगर ने बताया कि वह किडजी स्कूल में शिक्षक हैं। रोजाना की तरह स्कूल को जाते समय गेट को ताला लगाया था। बुधवार शाम हो घर पहुंची, तो

मेन गेट का ताला खुला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के लॉकर से 20 हजार की नकदी, चांदी व सोने के आभूषण भी नहीं थे। सुनीता ने बताया कि शतिरों ने घर से करीब 90 हजार रुपये की चोरी की है। एएसपी उना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात शतिरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

HIMACHAL PRADESH JAL SHAKTI DEPARTMENT
O/o Executive Engineer, JSV Division Arki
District-Solan, H.P.-173208 Phone - 61796-230774
E-mail - jshakti@gmail.com website - www.jshakti.org

*** NOTICE INVITING A TENDER ***

On the bids on firm rate basis are invited by the Executive Engineer, Jal Shakti Division Arki on behalf of Governor of Himachal Pradesh, in electronic tendering system in two covers for the under mentioned works from the contractor/firms of appropriate class enlisted with HP I&M/F Department, Jal Shakti Vihag. Tender document and other instruction shall be downloaded or viewed online from the portal <http://tenders.hp.gov.in> by the firms/individual registered on the website which is free of cost.

Sr. No.	Description of work	Estimated cost	Earnest Money	Time	Cost of
1.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Khad Kanetta to Chari Chourm 1 st & 2 nd stage in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network on contract basis of private party for one year)	16,32,090.00	32,000	One year	400/-
2.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Kothi Kothi and Gohar in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network Phase-1 & Phase-2 on contract basis of private party for one year)	14,15,034.00	28,300	One year	400/-
3.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Torou Sheel 1 st & 2 nd stage in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network on contract basis of private party for one year)	15,24,383.00	30,370	One year	400/-
4.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Batal in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network on contract basis of private party for one year)	7,11,646.00	14,230	One year	400/-
5.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Chhanda Nallah in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network on contract basis of private party for one year)	8,89,206.00	15,780	One year	400/-
6.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Bahawal Narayat in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network on contract basis of private party for one year)	5,17,220.00	10,350	One year	400/-
7.	Annual Repair maintenance and operation of LWSS Gohari in Tehsil Arki, District Solan (HP) (SH- Providing man power for operation and maintenance of pumping machinery, Rising main and distribution network on contract basis of private party for one year)	5,05,884.00	11,320	One year	400/-
8.	Annual Repair Operation and Maintenance of LWSS Dihal & group of villages in G.P Jabal Jannot in G.P Kolorhatti (on contract basis to a private party) One Year	17,24,604.00	33,400	One year	400/-

Key dates:-
I Date of online publication 27-09-2023 at 02:00 PM
II Bid submission Start date and time From 27-09-2023 at 02:00 PM
III Bid Submission end date and time Up to 05-10-2023 at 11:00 AM
IV Earnest Money and Cost of tender document submitted offline or online both mode 05-10-2023 at 11:00 AM
V Date of opening Bids i.e. eligibility criteria & Technical Bid 05-10-2023 at 11:30 AM
VI Date of opening of financial bid Date and time to notified separately

Last date of filling/uploading the tender through e-tendering 05-10-2023 up to 11:00 AM and will be opened on 05-10-2023 at 11:30 AM. The tender forms and other detailed conditions can be obtained from the website www.hp-tenders.gov.in

Executive Engineer, Jal Shakti Division, Arki.
RD No. 2951/2023-2024

'सृजनात्मक कला विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक'

टीम एक्शन इंडिया/सोलन/मनीष शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणात्मक व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। रोहित ठाकुर आज जिला सोलन के राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ महोत्सव ग्रुप-1 कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ सृजनात्मक कला विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को ऑल राउन्डर बनाने के लिए यूथ फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के लिए



विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रमों को गुणात्मक व रोजगारोन्मुखी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 134 सरकारी महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान

लगभग 80 प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा 500 से अधिक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा रही है जिसमें से लगभग 450 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है और 150 सहायक

प्राध्यापकों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि टीजाटी तथा सी एण्ड वी के लगभग 521 पद बच चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह

सहायक

8 विद्यार्थी को ऑल राउन्डर बनाने के लिए यूथ फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम सहायक सिद्ध होते हैं

सुखबू की दूरगामी सोच है कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला में एक कॉलेज ऑफ एक्सोलेन्स बनाया जाए। इसके निर्माण व औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में पुस्तकालय व खेल छात्रावास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में शीघ्र एमएससी गणित तथा भौतिक-विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस

समय प्राकृतिक आपदा से आहत है। भारी वर्षा के कारण पूरे प्रदेश के साथ-साथ नालागढ़ क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। नालागढ़ क्षेत्र में लगभग 250 मकानों को क्षति पहुंची है और कई सम्पत्तें मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की यथा सम्भव सहायता करने व उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। यूथ महोत्सव ग्रुप-1 कार्यक्रम में 28 से 30 सितंबर, 2023 तक 70 महाविद्यालय के 650 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। युवा महोत्सव ग्रुप-1 के अंतर्गत दस स्पर्धाएं जिनमें संभाषण, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, स्पोर्ट पेंटिंग, स्पोर्ट फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, कोलाज मेकिंग और कार्टूनिंग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्य ससदीय सचिव उद्योग, राजस्व तथा नगर नियोजन राम कुमार, नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर, सहित आदि उपस्थित थे।

डीएवी स्कूल चंबा में वार्षिक खेल मिलान का हुआ आयोजन



टीम एक्शन इंडिया/चंबा/हामिद डीएवी चंबा में 27 सितंबर, 2023 को कनिष्ठ वर्ग में तीसरी से चौथी कक्षाओं लिए वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों की जिम्मेदारी और खेलकूद में अच्छी प्रतियोगिता करना है। स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक गुलेरिया ने बताया कि वार्षिक खेल मिलान हमारे स्कूल की परंपरा का हिस्सा है, जो हमारे छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस, टीमवर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इस साल, हमने कई रोमांचक खेल और रोमांचक गतिविधियों के साथ बार-बार उम्मीदवारों को साहस और खेलकूद की दिशा में प्रोत्साहित किया है, जो हमारे खिलाड़ियों को दृढ़ संकल्प और खेलकूद भावना को प्रकट करता है। छात्रों ने कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज, 100 मीटर रेस, रस्साकसी, सैक रेस, श्री लेग रस्साकसी कूद इत्यादि खेलों में भरपूर जोश के साथ भाग लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता में आर्यभट्ट सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में दशानंद सदन ने प्रथम स्थान अपने नाम कर लिया। रस्साकसी प्रतियोगिता में आर्यभट्ट

प्रोत्साहन

8 स खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों की जिम्मेदारी और खेलकूद में अच्छी प्रतियोगिता करना है।

सदन की लड़कियों ने और पुरुष वर्ग में हंसराज सदन के छात्रों ने प्रथम स्थान कायम रखा। शतरंज प्रतियोगिता में सौम्या गुप्ता और शिवम ठाकुर ने प्रथम स्थान अपने नाम किया। रस्सी कूद प्रतियोगिता में हट्टि, 100 मीटर रेस में शिवालिका और सधुज ने प्रथम स्थान पर कब्जा किया। सैक रेस में रियांश, श्री लेग रेस में तनिष्काकांशा और काशी और नवनीत प्रथम स्थान पर रहे। खेल प्रतियोगिता के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर विजेताओं की खुशी में चार चांद लगा दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार गुलेरिया ने सभी विजेता छात्रों को उनकी सफ लता के लिए बधाई दी, पुरस्कार वितरित किए और निरंतर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और स्वास्थ्य लाभ कमाने हेतु प्रोत्साहित किया।

'क्लस्टर आधारित गतिविधियों को दिया जाएगा बढ़ावा'

आग्रह

8 सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी वर्ग से आह्वान करते हुए सहयोग देने का भी आग्रह किया

टीम एक्शन इंडिया/चंबा/हामिद उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए क्लस्टर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को क्लस्टर गतिविधियों को समस्त जिला में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। यह निर्देश उन्होंने 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जा



रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बचत भवन में आयोजित अभिनंदन कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान परिदृश्य में कचरा निष्पादन व्यवस्था के लिए जनप्रतिनिधियों की सहभागिता

बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के तहत 2 अक्टूबर तक स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जागरूकता गतिविधियों पर बल देते हुए उपायुक्त ने कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता रखने के लिए लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना बेहद

जरूरी है। उन्होंने कहा कि कचरे का निष्पादन करना हम सभी का व्यक्तिगत दायित्व है। हम अपनी जिम्मेदारी समझ कर ही सही तरीके से ठोस व तरल कचरे को अलग-अलग कर उसका उचित निष्पादन सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। कार्यशाला में उन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर लोगों के सुझावों को भी सुना। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी है। उन्होंने कचरे के उचित प्रबंधन के लिए स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, युवक मंडलों, व्यापार मंडलों, विभिन्न संगठनों, सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी वर्ग से आह्वान करते हुए सहयोग देने का भी आग्रह किया।

करीब छः दशक पुरानी सोलन-राजगढ़ सड़क गड़ों में तब्दील



टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ करीब छः दशक पुरानी सोलन-राजगढ़-मौनस रोड अपग्रेड होने के बजाए गडडों में परिवर्तित हो चुका है। विभाग द्वारा इस सड़क के सुधार करने बारे कोई सुध नहीं ली जा रही है। करीब 60 साल वीत जाने पर उप मंडल मुख्यालय राजगढ़ को सोलन से जोड़ने वाली एक मात्र सड़क को आजतक स्टेट हाई वे का दर्जा भी

नहीं मिल पाया है। अभी तक इस रोड को सरकार द्वारा एमडीआर अर्थात मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की श्रेणी में रखा गया है, जबकि इस सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। सड़क की दयनीय हालत देखकर बाहर से आने वाले पर्यटक और पंजाब क्षेत्र से बड़गाहब जाने वाले श्रद्धालु हिमाचल सरकार की कार्यशील पर सवाल उठाते हैं और दुबारा आने के लिए तैयार करते हैं।

नाहन डाइट में लगी अर्ली चाइल्ड केयर कार्यशाला

टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ चार दिवसीय अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन कार्यशाला का दूसरा चरण शिक्षा खंड पावटा साहिब में आयोजित किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अरुण शर्मा तथा प्रशिक्षण समन्वयक सुरेखा रानी के द्वारा किया गया। कार्यशाला में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज एंड्राइड युग में तकनीक ने शिक्षा को परिभाषा को भी रूपांतरित किया है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह करते हुए कहा कि इस तकनीकी दौर में उन्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी



सीख लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक वह दीपक है जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि इस तकनीकी दौर में उन्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी

से विभिन्न प्रकार की माइंड मैपिंग क्रियाएं सिखाई व बनवाई जा रही हैं कि कार्यशाला में कक्षा पक्ष से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी कराई जा रही है जोकि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए संचालित की जाएगी।

हॉकी में छात्रों का उपविजेता रहने पर पाठशाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत



टीम एक्शन इंडिया/हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ हॉकी में जिला स्तर पर 0-14 खेल कूद प्रतियोगिता रा.व.म. पाठशाला मटहरी के छात्र व छात्राओं का उपविजेता रहने पर पाठशाला पहुंचने पर प्रधानाचार्य रघु कौशल तथा सभी शिक्षकों ने खिलाड़ी छात्र व छात्राओं का तथा डीपीई सुनील चन्देल शारीरिक शिक्षिका अनीता

चंदेल का जोरदार स्वागत किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए इस पाठशाला की चार छात्राओं व छः छात्रों का चयन हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने चयनित छात्राओं व छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की व अभिवाकों को भी बधाई दी।

सदर विधायक नीरज नैयर के शोकाकुल परिवार से मिले कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार

ढाँढस

8 परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।



टीम एक्शन इंडिया/चंबा/हामिद कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने सदर विधायक नीरज नैयर की माता चंचल नैयर के गत दिनों स्वर्गवास होने की दुःखद घड़ी में आज उनके निवास पर पहुंच कर शोकाकुल परिवारजनों के साथ मिलकर संवेदन प्रकट की एवं ढाँढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिवार को इस

अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटनिया ने भी विधाध्यक नीरज नैयर की माता चंचल नैयर के गत दिनों हुए निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचकर

शोक संपत परिवार के साथ मिलकर संवेदन प्रकट की तथा उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की कुलदीप सिंह पटनिया ने कहा कि उनका निम्न व्यवहार और समाज सेवा के साथ-साथ कर्म के बुरे समय में हमेशा कर्म के साथ खड़े रहना और पार्टी का सहयोग करना हमेशा याद रखा जाएगा।

अपनी गारंटियों को आखिर कब पूरा करेगी कांग्रेस सरकार: भाजपा

टीम एक्शन इंडिया/मंडी/खेमचंद शास्त्री हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश भाजपा के द्वारा जो विधानसभा का धेराव किया गया। वह पूरी तरह से सफल रहा। इसके अलावा विधानसभा धेराव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार से जो सवाल किया, उसका जवाब अभी तक कांग्रेस जनता को नहीं दे पाई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता फंजन जंबाल और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित सूद ने यह शब्द कहे स उन्होंने कहा कि आज भी आम जनता के हितों को लेकर भाजपा लगातार काम कर रही है और कांग्रेस की गारंटी के बारे में आज भी उनसे सवाल पूछ रही है, क्योंकि कांग्रेस अपनी किसी भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विधानसभा धेराव के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस सरकार से 10 गारंटी के बारे में सवाल किया, लेकिन कांग्रेस सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो भी गारंटी जनता को दी गई, वह सब झूठी है और वह कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस सरकार के मात्र 10 माह के कार्यकाल में ही आज हजारों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। कांग्रेस सरकार के द्वारा 10 माह में कई जन विरोधी फैसले लिए गए और प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भाजपा को सड़कों को उतारना पड़ा।

साधा निशाना

8 भाजपा ने कांग्रेस सरकार से जो सवाल किया, उसका जवाब अभी तक कांग्रेस जनता को नहीं दे पाई

प्रदेश का हर वर्ग आज कांग्रेस सरकार से दुखी है और भाजपा सभी वर्गों को राहत देने की दिशा में आज भी जमीन स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में छात्रों और युवाओं के भविष्य को देखते हुए कई शिक्षण संस्थानों को खोला गया था लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 1000 से अधिक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जिसका नतीजा यह है कि अब युवाओं और छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे जगह का खर्च करना पड़ रहा है।

लोक मित्र केंद्रों में सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के नए शुल्क निर्धारित

टीम एक्शन इंडिया/जोगिंद्रनगर/संगराय एसडीएम जोगिंद्रनगर कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार ने लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के लिए अब नए शुल्क निर्धारित किये हैं। जिनमें सरकार की जीटूसी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जीटूसी पोर्टल के तहत मिलने वाली विभिन्न विभागों की सेवाओं के साथ-साथ बिजली बोर्ड के घरेलू व व्यावसायिक बिजली बिल जमा करने तथा नकल जमाबंदी लेने, ई-समाधान के



माध्यम से समस्याओं को रखना इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि जीटूसी ई-

डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन

शुल्क अदा

8 विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के लिए अब लोक मित्र केंद्र संचालकों को प्रति आवेदन 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा

उपलब्ध करवा रही है। अब लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्रति

आवेदन 25 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। जिनमें राजस्व, महिला एवं बाल विकास, कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नगर निगम, बागवानी, कृषि, परिवहन, पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन, खाद्य नागरिक आपूर्ति सहित अन्य विभागों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। इसी तरह जीटूसी पोर्टल के लिए मिलने वाली विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के लिए अब लोक मित्र केंद्र संचालकों को प्रति आवेदन 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा।

भाजपा बिलासपुर जिला इकाई के पदाधिकारियों की हुई नियुक्तियां

टीम एक्शन इंडिया/बिलासपुर/ कश्मीर ठाकुर भाजपा की बिलासपुर जिला इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने बताया कि प्रदेश और बिलासपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सुभाष महारा, प्रेम सिंह ठाकुर, रक्षा ठाकुर, भीम सिंह चंदेल, अरूप महाजन व राजेश शर्मा को उपाध्यक्ष, धारेलाल चौधरी व बुजलाल ठाकुर को महासचिव, उर्मिला कौशल, कुसुमलता, कल्पना शर्मा, पवन ठाकुर, दिनेश ठाकुर, राजेश ठाकुर व राजेंद्र प्रसाद को सचिव, मदन ठाकुर को कोषाध्यक्ष तथा दिनेश चंदेल को कार्यालय सचिव का दायित्व सौंपा गया है।

टीम एक्शन इंडिया/सोलन/मनीष

लगातार दूसरे वर्ष, 13 वर्ष पुरानी शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन टॉपएचू ग्लोबल रैंकिंग द्वारा जारी रैंकिंग में देश के सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टॉप स्थान हासिल किया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने दो पैरामीटर्स-रिसर्च क्वालिटी और इंटरनेशनल आउटलुक में भी भारत में नंबर एक स्थान हासिल किया है। इसने सब-पैरामीटर्स में से एक यानी रिसर्च स्ट्रेथ में भी 100 अंक हासिल किए। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देश में टॉप इंस्टीट्यूट घोषित किया गया था, चार इंस्टीट्यूट्स को 501-600 ग्लोबल कैटेगरी में रखा गया था,



जिनमें शूलिनी यूनिवर्सिटी, सोलन, अन्ना यूनिवर्सिटी, जामा मिल्लिया इस्लामिया और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट दूसरे स्थान पर थे। हालांकि, शूलिनी ने 44.85 अंकों का अंक प्राप्त करने वाले हासिल करके कैटेगरी में अन्य तीन का प्रतिनिधित्व किया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को 44.22,



जामिया को 43.49 और अन्ना यूनिवर्सिटी को 42.36 अंक मिले। यह उन सभी आईआईटी से भी आगे है जिन्होंने इस साल रैंकिंग में हिस्सा लिया था। इस वर्ष की रैंकिंग में कटौती करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, पिछले वर्ष के 75 की तुलना में

91 विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। खोसला ने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए फैकल्टी मेंबर और रिसर्चर्स की सराहना करते हुए, उनसे अपील की और भी बेहतर रैंकिंग के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि रैंकिंग

निरंतर गुणवत्ता का एक स्पष्ट संकेतक है जो शूलिनी लॉनिंग, रिसर्च और इन्वेंशन के विभिन्न पैरामीटर्स पर कम्प्यूटि को प्रदान करने में सक्षम है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ग्लोबल टॉप 200 यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा।

खेलों शारीरिक व मानसिक क्षमता को बढ़ाने का करती है कार्य: डॉ प्रकाश चंद ठाकुर

धूमधाम के साथ कोल वैली पब्लिक स्कूल नेहर में सम्पन्न हुई उप खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता

टीम एक्शन इंडिया/बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर
जिला बिलासपुर के कोल वैली पब्लिक स्कूल नेहर में चल रही उप खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता धूमधाम के साथ सम्पन्न हो गई। उपखंड स्तरीय खेलों दो दिन तक चली और जिसमें लगभग 27 प्राथमिक स्कूलों ने भाग लिया। समापन समारोह के उपलक्ष्य पर समाजसेवी व हिमाचल प्रदेश कृषि सेवाएं से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर डॉ प्रकाश चंद ठाकुर ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत कर विजेता टीमों को इनाम बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों शारीरिक व मानसिक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। कहा कि



खेलों हमें अनुशासन के साथ-साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उन्होंने खेल स्पर्धा में विजयी रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं तथा जो खिलाड़ी असफल हुए हैं उन्हें भविष्य में बेहतर प्रयास करने की नसीहत भी दी। इस अवसर पर

उनके साथ रहे विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक शिव राम ठाकुर ने भी खिलाड़ियों से जीवन में आगे बढ़ते हुए पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी महत्व प्रदान करते हुए निरन्तर भाग लेने का आह्वान किया। इस खेल

प्रतियोगिता

8 ऊंची व लंबी कूद दौड़, खो-खो, वालीबॉल, कबड्डी आदि खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया

स्पर्धा के अंतर्गत, भाषण प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा ऊंची व लंबी कूद दौड़, खो-खो, वालीबॉल, कबड्डी आदि खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इस दौरान विभिन्न टीमों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। इसी कड़ी के चलते छात्र वर्ग की

हुई कबड्डी स्पर्धा के एक रोमांचक मुकाबले में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला रामबाग ने सायर स्कूल को हराया। जबकि कबड्डी की ही छात्र वर्ग की प्रतियोगिता में पंजाब ने हरनोड़ा को हराया। वालीबॉल में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला पंजाब विजेता व हरनोड़ा उपविजेता रहा। खो-खो की छात्र वर्ग में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला पंजाब विजेता व उपविजेता दसगांव वही छात्र वर्ग में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला हरनोड़ा विजेता व उपविजेता पंजाब, 50 मीटर दौड़ छात्र वर्ग में मोहित हरनोड़ा विजेता और उप विजेता रिषभ व छात्र वर्ग में अंशु पंजाब विजेता और अनन्य सायर उपविजेता।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया आयोजन

टीम एक्शन इंडिया/किन्नौर/अनिल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबाई के सौजन्य से समाजसेवी संस्था स्मार्क द्वारा जिला किन्नौर के तीन किसान उत्पादक संगठनों बुवारंगी, जौगुण तथा मोरग के 25 पदाधिकारियों की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शिवालिंग च्यू रिक्रग पीओ में किया गया। कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य रूप से जिला विकास प्रबंधक नाबाई विजय नेगी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों का समय-समय पर मार्गदर्शन बहुत जरूरी है ताकि वो अपने क्षेत्र में किसानों के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकें। उन्होंने साकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी साथ ही किसानों से नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने का आह्वान किया नई तकनीकों के



चलते कृषि ने नई राह पकड़ी है। तकनीक के उपयोग को रूप में अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। जिस का किसानों को सीधा लाभ प्राप्त हो सकता है। किसानों को इससे प्रोत्साहित की प्रक्रिया में सरलता आती है जिस से किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं। लेकिन आज भी कृषि की नवीन तकनीक से बहुत से किसान वंचित हैं। यदि आधुनिक कृषि तकनीकों को सही से किसानों तक पहुंचाया जाए तो इससे बड़ा फायदा हो

सकता है और किसानों की आय में वृद्धि संभव है। इस कि सफ लता के लिए प्रतिनिधियों को योजना बना कर किसानों के बीच में जाना पड़ेगा तब तक जमीनी स्तर पर सही मायने में काम हो सके। इस मौके पर स्मार्क संस्था के अध्यक्ष प्रदीप आजाद ने कहा कि संस्था द्वारा किसान उत्पादक संगठन बनने का मुख्य उद्देश्य उन किसानों तक पहुंचने का है जिन के पास कम उत्पाद होने के कारण वो उत्पाद का विक्रम नहीं कर सकते।

न्यूज प्लैश

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने आपदा राहत कोष में दिया योगदान



टीम एक्शन इंडिया/शिमला हिमाचल प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन के रूप में आपदा राहत कोष-2023 में 77,29,825 रुपये का योगदान दिया है। इस राशि का चेक आज यहाँ एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक किनोद जायसवाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू को भेंट किया। इस पुनीत अंशदान के साथ भारतीय स्टेट बैंक ने मुख्यमंत्रियों को एक एम्बुलेंस भी भेंट की है जो आपातकालीन और आपदा की स्थिति को दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने समाज कल्याण के प्रति भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके परप्राप्तियों का प्रदर्शन करते हैं। एकजुटता की भावना और समाज के रूप में हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

अरैया पालमपुर में अविस्मरणीय छुट्टी का अनुभव करें और जीएचए डिस्कवरी रिवॉई पॉइंट अर्जित करें

शिमला: अरैया पालमपुर आपका कुदरत के केंद्र में स्थित हमारे शानदार और सुरक्षित रिपोर्ट में एक अविस्मरणीय छुट्टी का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। आप परिवार, दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं या रोमांटिक छुट्टी की तलाश में हैं हम विश्राम, रोमांच और विश्व स्तरीय सुविधाओं का सही मिश्रण प्रदान करते हैं। इससे अलावा हमारे ग्राहकों को जीएचए डिस्कवरी पॉइंट अर्जित करने से लाभ होगा जो घर या बाहर स्वतंत्र होटल ब्रांड्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम है। ग्लोबल होटल एलायंस (जीएचए) द्वारा संचालित यह प्रोग्राम नई यात्रा और लाइफस्टाइल के रुझानों को अपनाता है 85 देशों में 36 ब्रांड्स के 500 से अधिक होटलों को शामिल करता है और 11 मिलियन से अधिक सदस्यों को सेवा प्रदान करता है।

हमारे रिपोर्ट के विशाल और अच्छी तरह से सजाए गए कमरे और विला आसपास के परिदृश्य के शानदार दृश्य पेश करते हैं। आपके आराम और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कमरा प्लैट स्क्रीन टीवी, एयर कंडीशनिंग और हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अरैया पालमपुर में हम अविस्मरणीय अनुभव बनाने के महत्व को समझते हैं। इसीलिए हम हर रुचि और स्वाद के अनुकूल कई प्रकार की गतिविधियों और सुविधाएँ प्रदान करते हैं। कायाकल्प करने वाले स्या उपचार और योग सत्र से लेकर बिलिंग से चो रंगा तक पैरामलाइजिंग, ट्रेकिंग, राफ्टिंग और माउंटन बाइकिंग जैसे रोमांचकारी आउटडोर रोमांच तक हमारे पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हमारे रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्प भी शामिल हैं जिसमें एक छत पर रेस्तरां भी शामिल है जो आसपास के पहाड़ों के लुभावने दृश्यों के साथ स्वादिष्ट स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजन प्रस्तुत है। अरैया स्या में कई विकल्पों के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को फिट से जीवंत कर सकता है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं अरैया पालमपुर में अपना स्टैट बुक करें और इस सदी की छुट्टियाँ को यादगार बनाएं।

समुद्र संस्कृति को जीवित रखने में मेले निभाते हैं अहम भूमिका: अनिरुद्ध

टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मेले और त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, हम सबको इन आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ समाज में समरसता बढ़ती है वहीं आपसी भाईचारे की भावना भी प्रगाढ़ होती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह आज बुधवार को राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला, सारांग के दूसरे दिन के आयोजनों में बतौर मुख्य अतिथि भाग ले रहे थे। अनिरुद्ध सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विकासात्मक प्रदर्शनों का



अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से विभिन्न विभागों के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की आम जन को जानकारी प्राप्त होती है। अनिरुद्ध सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का स्मरण करते हुए

कहा कि सराहा डिग्री कॉलेज उनकी देन है। उन्होंने कहा कि सिमौर जिला ने अच्छी तरकीबी की है, यहाँ मेहनत कश लोग करते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा में करीब 12 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा

सप्लाई 3.0 की ओर तेजी से अग्रसर पी एंड जी इंडिया ने 300 करोड़ के 'पी एंड जी सप्लाई चैन कैटलिस्ट फंड' की घोषणा की

टीम एक्शन इंडिया/बड़ी प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया (पी एंड जी इंडिया) विक्स, हिस्पर, जिलेट आदि के निमाता ने आज बाहरी साझेदारों इनोवेटर के साथ मिलकर नए इन्वेंशनस और सॉल्यूशन के विकास के लिए 2300 करोड़ के 'पी एंड जी सप्लाई चैन कैटलिस्ट फंड' की घोषणा की, जो आधुनिक सप्लाई चैन इकोसिस्टम - सप्लाई 3.0 की दिशा में पी एंड जी इंडिया को आगे बढ़ाएगा। यह फंड सप्लाई के अगले स्तर को बनाने के लिए कस्टमाइज्ड बिजनेस सॉल्यूशन्स पर पी एंड जी के साथ सहयोग करने के लिए स्टार्ट अप और इनोवेटर को अवसर प्रदान करेगा: एक ऐसी सप्लाई चैन, जो अधिक

कुशलता, प्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, पारदर्शिता और मजबूती प्रदान करती है। यह घोषणा प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल के अनुरूप है, जो देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में एक प्रयास है जो लक्षित कामकाज में सुधार के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की बेरोक आवाजाही को बढ़ाएगी। पी एंड जी सप्लाई चैन कैटलिस्ट फंड के हिस्से के रूप में पी एंड जी इंडिया के रणनीतिक निवेश में सप्लाई चैन अनुकूलन, डिजिटलीकरण, क्षमता वृद्धि और स्थिरता सहित विभिन्न प्रकार की पहल शामिल होंगी, जो कंपनी के सप्लाई चैन कौशल को उभारने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह नया फंड पी एंड जी इंडिया के 'वीगो' प्रोग्राम का हिस्सा है।

'शिलाई महाविद्यालय रूट पर महीनों से नहीं चल रही मुद्रिका बस'

टीम एक्शन इंडिया/नाहन एसपी जैरथ शिलाई-कुहूँट पीडब्ल्यूडी सड़क पिछले चार माह से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी है। महाविद्यालय शिलाई तक मुद्रिका बस व दया-कुहूँट बस रूट बंद पड़ जाने से महाविद्यालय के छात्रों व गांव के हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मण्डल ने उपमंडलाधिकारी शिलाई को महाविद्यालय के लिए चार माह से बंद मुद्रिका बस के कारण छात्रों को ही समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा।

मनाली पहुंची वोल्वो, पर्यटकों के लिए फिर से होगा मनाली का सफर आरामदायक

टीम एक्शन इंडिया/मनाली/राज अग्रवाल मनाली में हुई त्रासदी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था उसे फिर से खोलने के लिए आज बहाल कर दिया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस आज लगभग 80 दिन बाद मनाली बस स्टैंड पहुंची। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ खुद कुल्लू से मनाली तक वोल्वो बस में आए और सड़क बहाली का जायजा लिया। मनाली बस स्टैंड पर पत्रकारों को संबोधित करते



हुए भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि एक बार फिर से पर्यटकों के लिए आवागमन का आरामदायक सुविधा आज से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मनाली फि र से

पार्यकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मनाली एक बहुत ही खुरे दौर से गुजरना है लेकिन अब सब कुछ फि र से सामान्य हो गया है।

परियोजना प्रबंधक ने जल वहाव सिंचाई योजना थरास का निरीक्षण किया

टीम एक्शन इंडिया/कुल्लू/श्याम कुल्वी कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में चल रहे फ सल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना, जायका चरण-दो, के तहत जिला परियोजना प्रबंधक मंडी डॉ. बलवीर सिंह ठाकुर ने जल वहाव सिंचाई योजना थरास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उप परियोजना थरास में चल रहे वहाव सिंचाई योजना के निर्माण कार्य को खूब सराहा। अधिकारी ने मौके पर पाया कि खंड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू के माध्यम से ठेकेदार जगदीश चंद के द्वारा जो निर्माण कार्य



किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफ़ी संतोषजनक है। उन्होंने खंड परियोजना प्रबंधन कुल्लू के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगे भी कुशल के निर्माण कार्य

को ठेकेदार से गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्य करवाएँ। जिला परियोजना प्रबंधक ने कृषक विकास संगठन थरास के

प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे भी निर्माण कार्य की समय-समय पर निगरानी करते रहें। जिला परियोजना प्रबंधक ने खंड परियोजना प्रबंधन कुल्लू के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें खंड परियोजना प्रबंधक कुल्लू डॉ. प्रदीप ठाकुर ने कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले के अन्तर्गत चयनित 21 उप परियोजना में विभिन्न कार्यों विवरण दिया। उन्होंने अवगत करवाया कि कुल 21 उप परियोजनाओं में से 6 उप परियोजना के टेन्डर आवंटित हो चुके हैं व एक उप परियोजना में कार्य प्रगति पर है।

उपायुक्त कुल्लू ने राजस्व अधिकारियों की बैठक की



टीम एक्शन इंडिया/कुल्लू/श्याम कुल्वी

उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में राजस्व व लाडा से सम्बंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने गत दिवस को राजस्व अधिकारियों की बैठक के अध्यक्षता करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने जिले के उपमंडलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी लाभान्वित हो सकें। उन्होंने पार्टिसन, जमाबंदी, निशानदेही व न्यायिक मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने प्रधानमंत्री किसान

प्रस्तुति

8 बैठक में जिला टाऊन प्लानर रसिक शर्मा द्वारा टीपीसी एक्ट से सम्बंधित पीपीटी की प्रस्तुति दी गई

निधि कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में 81997 किसान प्रधानमंत्री किसान निधि कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं तथा अभी तक कुछ किसानों द्वारा केवाईसी नहीं किया गया है। उपायुक्त ने जिले के ऐसे सभी किसानों जिन्होंने अभी केवाईसी नहीं करवा है को शीघ्र केवाईसी करना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अवैध कच्चों को हटाने पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला टाऊन प्लानर रसिक शर्मा द्वारा टीपीसी एक्ट से सम्बंधित पीपीटी की प्रस्तुति दी गई।

आम नागरिक की आवाज उठाना व शहर का विकास करवाना मंच का उद्देश्य

नागरिक अधिकार मंच ने मंडी शहर के ज्वलंत मुद्दों को उठाने की बनाई योजना

टीम एक्शन इंडिया/मंडी/खेमचंद शास्त्री मंडी नागरिक अधिकार मंच की साधारण सभा की बैठक सनातन धर्म सभा परिसर मंडी में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने की। बैठक में मंडी नगर निगम क्षेत्र की मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंचवखर मंदिर के पास पड्डल के लिए बने पुल जो पिछले दिनों बाढ़ के



कारण ढह जाने का पुर्निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ करने, विश्वकर्मा मोंड पर गिरे लहसै को जल्दी उठाने, पुलधराट-मंगवाई तथा टारना की

ओर टूटी सड़क पर डंगा जल्दी लगाने और यातायात बहाल करने, सैनी मोहल्ले से अस्पताल की ओर रास्ते का पुर्निर्माण करने, शहर के

सभी क्षेत्रों की सड़कों पर पड़े गड़ों को जल्दी भरने और मुख्य सड़क पर मिट्टी व धूल को कम करने, स्कूल बाजार की टूटी सड़क पर

जनसमस्या

8 समस्याओं को हल करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन व सरकार से मांग उठाई जाएगी

लग रहे डोंगे को जल्दी पूरा करने, पुरानी मंडी पीपल वृक्ष के पास सड़क पर पड़े गड़ों को जल्दी भरने और वर्षों से प्रभावितों की अन्य समस्याओं को हल करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन व सरकार से मांग उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी नगर निगम के बनने के अर्द्धाई साल पूरा होने

के बाबजूद घरों पर नए नंबर नहीं लगने पर चिंता व्यक्त की गई और इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए मांग की जाएगी इसके अलावा निगम द्वारा गृह कर बढ़ाने और उसकी एवज में शहरवासियों को कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध न कराने का भी विरोध किया गया। स्वच्छता और साफ-सफाई को सुदृढ़ करने और पड्डल तथा अन्य एकांत स्थानों पर सीसी कैमरे लगाने, पड्डल खेल मैदान में गाड़ियों के ड्राइविंग टेस्ट न करवाने और इसे सुबह शाम सैर करने और दिन में खेल के लिए के लिए ही प्रयोग करने की मांग उठायी जाएगी।

न्यूज फ्लैश

कृष्ण छौवकर का हुआ मठ्य स्वागत



समालाखा, कमाल हुसैन
माडल टाउन के रघुनाथ मन्दिर में आज भव्य श्री गणेश महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला महासचिव कृष्ण छौवकर किवाना मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर कृष्ण छौवकर का आयोजकों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। यहां पर बोलते हुए मुख्य अतिथि कृष्ण छौवकर किवाना ने कहा कि भगवान श्री गणेश जी को हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है। ऐसे भगवान जी के इस विशाल महोत्सव में उनको मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। इस पुण्य कार्य के लिए व उन्हें इतना मान सम्मान प्रदान करने के लिए वह समस्त आयोजक समिति का धन्यवाद करते हैं। छौवकर ने कहा कि अपने भगवानों के उत्सव मनाना संस्कृति को जिंदा रखना है। इस अवसर पर प्रदमन गुजानी, इंद्र लाल, विनोद मल्होत्रा, मन्नु छाबड़ा, नरेश गुलाटी, बलवंत मल्होत्रा, राजेंद्र टंडन, सुभाष मल्होत्रा, रमेश छाबड़ा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

आकाश बायजूस के 35वें स्थापना दिवस पर 978 रक्तवीरों ने डोनेट किया बल्ड



करनाल। परीक्षण तैयारी सेवाओं में भारत के अग्रणी, आकाश बायजूस ने उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान राज्यों की 46 शाखाओं में अपने 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिन शहरों में भारी संख्या में रक्तदाता आए उनमें जम्मू, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, रोहतक, हिसार, करनाल, जयपुर, जोधपुर और सीकर शामिल हैं। यहां कुल 978 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया।

इस कार्यक्रम में आकाश के सर्पिण्ट स्टॉफ सदस्यों सहित बड़े पैमाने पर लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। नीट, आईआईटी जेईई और ओलापियाड की तैयारी के लिए देश के प्रमुख संस्थान के रूप में आकाश को सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना के लिए भी जाना जाता है। संस्था के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर समाज को वापस लौटाने की आकाश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह आयोजन एक जबरदस्त सफलता थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आए और जीवन बचाने के नेक काम में अपना योगदान दिया।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर श्री परमेश्वर झा ने कहा, "हम अपना 35वां स्थापना दिवस मनाने को लेकर रोमांचित हैं।" "हमारा मिशन हमेशा छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना रहा है। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि शिक्षा पाठ्यपुस्तकों से परे है। इसमें समाज के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी शामिल है। यह रक्तदान शिविर हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है वे समुदाय जिन्होंने पिछले 35 वर्षों से हमारा समर्थन किया है।"

रक्तदान शिविर समाज के कल्याण के लिए आकाश की प्रतिबद्धता का उदाहरण है और इस विश्वास को रेखांकित करता है कि शिक्षा संस्थान जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो समाज की बेहतरी में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।

आकाश उन सभी प्रतिभागियों और स्वयंसेवकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने रक्तदान शिविर को उल्लेखनीय सफलता दिलाई। यह आयोजन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शिक्षा केवल अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के बारे में नहीं है; यह दयालु व्यक्तियों के पोषण के बारे में है जो दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

'केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग'

राजस्थान कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जीडीपी में उत्तर भारत में नंबर 1: गहलोत

टीम एक्शन इंडिया/संजय शर्मा
नारनौल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को अटेली से सटे हुए कोटपुतली-बहरोड़ जिले के काटुवास गांव में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के पैतृक गांव में उनके माता-पिता को प्रतिमा का अनावरण व जनसभा का संबोधित किया। काटुवास गांव तीन और हरियाणा से घिरा होने के का कारण प्रदेश के अनेक मंत्री व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में विशाल समारोह का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लेकर



पूर्व सरपंच लेखाराम ठेकेदार के द्वारा सामाजिक कार्यों को याद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जीडीपी में उत्तर भारत में नंबर 1 तथा देश में नंबर 2 राज्य बन गया है। आईटी, दुग्ध उत्पादन और दलहन उत्पादन में भी राजस्थान देश का अक्वल राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में 90 से अधिक विश्वविद्यालय और 310 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। वृहद स्तर पर उप तहसील, तहसील, सीएचसी, पीएचसी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया गया है। राज्य की

अनावरण

8 टीकाराम जूली के पैतृक गांव में उनके माता-पिता की प्रतिमा का अनावरण किया

योजनाओं का अन्य प्रदेश भी कर रहे अनुसरण कर रहे हैं। प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आरजीएचएस जैसी योजनाएं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने कोटपुतली-बहरोड़ क्षेत्र को जिला बनाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है।

राम का वन प्रस्थान, दशरथ ने त्यागे प्राण



टीम एक्शन इंडिया/कुरुक्षेत्र(दलबीर मलिक)श्री जयभारत रामलीला ड्रामाटिक क्लब की ओर से बुधवार रात्रि श्रीराम का वन प्रस्थान व दशरथ मरण प्रसंग बहुत ही शानदार दृश्यों व संवादों के साथ दर्शाया गया। इस अवसर पर समाजसेवी अनीता गुप्ता ने बतौर मुख्यातिथि श्रीराम आरती में भाग लिया। क्लब के सदस्यों ने मुख्यातिथि को स्मृति चिह्न प्रदान किया। मुख्यातिथि ने कहा कि श्रीराम जैसा आदर्श दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

का भी सपना रहा कि भारत में राम राज्य स्थापित हो रामलीला के मंच पर छोटे-छोटे बच्चों को लोरी दी गई। मंच से दानी सज्जनों की घोषणा भी की गई। इस मौके पर दर्शकों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। डायरेक्टर सुनील भटनागर ने बताया कि सुरेश कश्यप ने दशरथ, राम कुमार कश्यप ने राम, दर्शन भटनागर ने लक्ष्मण, नीरज कश्यप ने सीता, हेमन्त स्वरूप भटनागर ने कौशल्या, शेर सिंह ने सुमित्रा और बोनू ने केकेई का अभिनय किया।

युवाओं ने संजय अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा



टीम एक्शन इंडिया/पानीपत, कमाल हुसैन
पानीपत शहरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आनंद गहलोत, अकिंत गहलोत के चाचा अपने साथी ऋषि गिल, सोनु, मनोज, प्रदीप, अंकुश मांडल टाउन भी अपने साथियों के साथ संजय अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं संजय अग्रवाल ने सभी को कांग्रेस पार्टी का

आईजीयू में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

टीम एक्शन इंडिया/रेवाड़ी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी के विधि विभाग में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, रेवाड़ी के माध्यम से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायालय, रेवाड़ी के अध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी डीएलएएए (उखरअ) की तरफ से विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए उपस्थित रहे। विधि विभाग के लीगल एंड सेल की कोऑर्डिनेटर डॉ. मीनु यादव ने श्री राजीव गुप्ता जी का स्वागत किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी प्रदान करना है। श्री राजीव गुप्ता जी ने ड्राइविंग लाइसेंस, इश्योरेंस पॉलिसी, मोटर व्हीकल एक्ट तथा चेक बाउंस से संबंधित सभी तथ्यों पर विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया।

हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा पूजा रानी ने प्रथम, शंकर ने छटा स्थान प्राप्त किया

टीम एक्शन इंडिया/पानीपत, कमाल हुसैन
आई.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पानीपत के छात्र-छात्राओं ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में एम. ए. हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा पूजा रानी ने प्रथम, शंकर ने छटा, सूचिका ने सातवां एवं दीक्षा देवी ने नौवां स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन करने के साथ-साथ माता-पिता का नाम भी रोशन किया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के सदस्यों ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि महाविद्यालय की परंपरा के

अनुरूप विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्य डॉ. अजय कुमार गर्ग ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में शीर्ष 10 में आने वाले विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। ये विद्यार्थी अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। हिंदी विभागाध्यक्षा डॉ. शशी प्रभा जी ने विद्यार्थियों को कहा कि जिस प्रकार सूर्य जलकर प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार अथक

प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। उन्होंने बताया कि 2015 से लगातार हमारे विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं। और लगभग 115 से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में टॉप टेन में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता व प्राध्यापकों को मेहनत व कुशल मार्गदर्शन को दिया। सम्मान समारोह के अवसर पर डॉ. शशि प्रभा, डॉ. सुनीता, डॉ. निर्मला, डॉ. पूजा व डॉ. रेखा आदि मौजूद रहे।

प्रदेश को स्वच्छता मॉडल के रूप में तैयार करने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका: कंवलजीत

टीम एक्शन इंडिया/कुरुक्षेत्र (दलबीर मलिक)
जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत केंद्रीय सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई थी। पहले बहुत से ऐसे शहर और कस्बे थे जहां पर सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जिसकी वजह से देश में बीमारियां बढ़ती थी। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण को शुरू किया है। यह अभियान 26 जनवरी 2024 तक चलाना जाएगा। जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत कौर जीवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला परिषद द्वारा



आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण योजना समारोह में बोल रही थी। इससे पहले जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर, जिला परिषद सीईओ अशोक मुंजाल, लेखा अधिकारी सत्यभूषण द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण योजना के तहत जिले की 15 ग्राम पंचायतों को प्रथम चरण में अपने-अपने गांवों को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया। इस स्वच्छ सर्वेक्षण

विकास किया जा सके और प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर एक के स्थान पर लाया जा सके। जिला परिषद के सीईओ अशोक मुंजाल ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत सभी गांवों ने स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा व सराहनीय कार्य किया। उन्होंने शेष बची ग्राम पंचायतों से अपील करते हुए कहा कि वे इन 15 ग्राम पंचायतों से प्रेरणा ले और अपने-अपने गांवों को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रथम चरण में 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत चनारथल सरपंच जसविन्द्र कौर, ग्राम पंचायत रामशरण माजरा सरपंच रीना देवी, ग्राम पंचायत

मोहड़ी सरपंच सुखदीप सिंह, ग्राम पंचायत बडीदी सरपंच मलकीत कौर, ग्राम पंचायत जलबेड़ा ब्लॉक इस्माइलाबाद सरपंच रीना देवी, ग्राम पंचायत बाबैन सरपंच संजीव कुमार, ग्राम पंचायत धनौरा जाटान सरपंच सुभाष चंद, ग्राम पंचायत कोलापुर सरपंच कमलेश रानी, ग्राम पंचायत अभिमन्युपुर सरपंच गौरव आर्य, ग्राम पंचायत किरमच सरपंच रणबीर सिंह, ग्राम पंचायत अटौन सरपंच रीना रानी, ग्राम पंचायत अजरानी सरपंच दलबीर सिंह, ग्राम पंचायत हरिगढ भौरख सरपंच कमल कुमार, ग्राम पंचायत उमरी सरपंच मीना देवी को स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने पर सम्मानित किया गया है।

फेडरल बैंक ने पंजाब में किया विस्तार, राजपुरा में खोली शाखा

टीम एक्शन इंडिया/राजपुरा
फेडरल बैंक ने मंगलवार को राजपुरा स्थित फाउण्डेशन चौक में अपने नई दिल्ली जौन के अंतर्गत 135वीं शाखा का उद्घाटन किया जिसमें की बैंक का समूचे देश में 1393 शाखाओं को मजबूत नैटवर्क गठित हो गया है। शाखा का विधिवत उद्घाटन राजपुरा की विधायक नीना मित्तल और कौली स्थित सेंट जोसेफ कोनवेंट स्कूल के फादर युसुफ मसीह ने फेडरल बैंक के नई दिल्ली स्थित जौनल आफिस के वाईस प्रेजिडेंट नटराजन पीवी, चंडीगढ़ कलस्टर के डिप्टी वाईस प्रेजिडेंट व ऐरिया हेड सन्नी दुहजा और शाखा प्रबंधक भरत बहल की मौजूदगी में किया इस अवसर पर मुख्यातिथि नीना मित्तल ने बैंक प्रबंधकों को बधाईयां व्यक्त करते हुये कहा कि नई स्थापित यह शाखा स्थानीय लोगों को और अधिक रुप वित्तीय सशक्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

सेवा समिति की निःशुल्क मासिक बस यात्रा के पांच वर्ष पूरे

टीम एक्शन इंडिया/पानीपत, कमाल हुसैन
मां शाकुंभरी देवी सेवा मंडल द्वारा पानीपत से मां शाकुंभरी देवी निःशुल्क मासिक बस यात्रा के पांच साल पूरे होने पर आज सलारगंज गेट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम पार्षद एवं समाजसेवी विजय जैन रहे। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राधा रानी सेवा समिति के प्रधान सुभाष गोयल एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर सभा के संरक्षक एवं ऊंची दुनिया सेवा संस्थान के अध्यक्ष



विनोद पांचाल रहे। वहीं संस्था के पांच साल पूरे होने पर मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने मंडल के सदस्यों एवं सहयोगियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं मंडल के प्रधान महेंद्र गोयल ने

मंडल ने जो यह शुरुआत की है उसके आज पांच वर्ष पूरे होने पर उनकी टीम बधाई की पात्र है भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य मंडल करता रहे उसके लिए वह सदैव उनके साथ हैं। वहीं अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि सितंबर 2018 में बस की शुरुआत की गई थी जो निरंतर सहयोगियों के सहयोग से चली आ रही है। मंच संचालन युवा समाजसेवी मेहुल जैन एडवोकेट ने किया। वहीं टीवी कलाकार मनोज पांचाल ने भी अपनी प्रस्तुति देकर श्रद्धालु को शुभकामनाएं दीं।

शिखर धवन की दा वन स्पोर्ट्स अकादमी ने ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया

रोहतक। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी संस्था दा वन स्पोर्ट्स अकादमी के माध्यम से, ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल रोहतक के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करते हुए छात्रों के समग्र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस वेव का उद्देश्य स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्रांति लाना और छात्रों के में बुनियादी वर्षों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य खेल में उत्कृष्टता की संस्कृति का पोषण करते हुए अनुशासन, टीम वर्क, हार्ड संकल्प और एथलेटिसिज्म जैसे मूल्यों की स्थापना करना है। शिखर धवन की क्रिकेट विशेषज्ञता और दा वन स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सुसंगठित पद्धतियों के माध्यम से, यह साझेदारी छात्रों को एक ऐसे खेल प्रशिक्षण अनुभव/ प्रदान करने के लिए तैयार है जो छात्रों में आमूलतः परिवर्तन लेकर आएगा।

ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक की प्रिंसिपल श्रीमती शैली गांधी कहती हैं, "ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक में शिखर धवन स्पोर्ट्स अकादमी का स्वागत करते हुए हम बेहद रोमांचित हैं। निरस्यं देह यह पहल हमारे छात्रों को अधिक समर्पण और जुनून के साथ खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देगी। समग्र रूप से देखा जाए तो यह पहल अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम खिलाड़ी गढ़ने में योगदान देगी शिखर धवन की पहल, दा वन ग्रुप के सीईओ अमितेश शाह इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, "दा वन स्पोर्ट्स ने सोनीपत और अब रोहतक में ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल परिसरों/कैंपसेस के साथ खेल भागना के अनुरूप गौरवपूर्ण साझेदारी की है, जो कि ज्यादा फिट और ज्यादा वाइबेंट भारत की ओर बढ़ने की दिशा में हमारा कदम है। हमारी प्रत्येक साझेदारी के द्वारा हम एक स्वस्थ राष्ट्र के हमारे दृष्टिकोण के और करीब जाते हैं।

भगत सिंह जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

टीम एक्शन इंडिया/सिद्धार्थ राव, बहादुरगढ़।
गुरुवार, 28 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती पर भगत सिंह मैत्री संस्था ने शहर के बादली रोड पर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माउंट एवरेट की चोटी को फतेह करने वाले दुल्हेड़ा गांव से संबंधित कुलदीप देशवाल रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गायत्री परिवार द्वारा हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने आहुति डालकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्क में स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के साथ उनके शहीद साथियों



राजगुरु और सुखदेव की भी मूर्ति स्थापना हेतु शिलान्यास कार्यक्रम हुआ जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों ने अपना हाथ लगाकर मूर्ति कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात शहीद यादगार कमेटी ने नाट्य मंचन की जीवंत प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को भाव-विभोर कर दिया।

आयोजन के दौरान शहर में मेट्रो पिलरों पर शहीदों और महापुरुषों के चित्र अंकित करने में संस्था का सहयोग करने वाले दानी सज्जनों को भी भगत सिंह मैत्री संस्था द्वारा पटक पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त निःस्वार्थ जीव सेवा के लिए पत्रकार विनोद कुमार को भी संस्था द्वारा मास्टर विजपाल छिल्लर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान का पुण्य अर्जित किया। वैश्य बीएड कॉलेज की स्वयंसेविकाओं ने रक्तदान शिविर में

सहयोगी की भूमिका अदा की। इस दौरान विधायक राजेंद्र सिंह जून, बारहा गांव के प्रधान उमदे सिंह देशवाल, नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी, वेद प्रधान, बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता, भाजपा नेता बिजेन्द्र दलाल, जेजेपी हलकाध्यक्ष संजय दलाल, पंकज गर्ग, युद्धवीर भारद्वाज, पंकज गर्ग, नवीन बंदी, शेखर यादव, कोबी प्रधान प्रवीण गर्ग, डॉ. बसंत दुबे, डॉ. संजय सिंह, ब्लॉक समिति चेयरपर्सन प्रतिनिधि सत्यवान दलाल, अनेक पार्षद, जिला पार्षद, सरपंचों सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग और भगतसिंह मैत्री संस्था के समस्त पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

'संधर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस और जवानी चलती है'

टीम एक्शन इंडिया/पानीपत, कमाल हुसैन
आर्य चरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत में शहीद भगत सिंह की जयन्ती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय की पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही। इस अवसर पर कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं के छात्रों को सभागार में एकत्रित कर बलिदान की महत्व समझाया गया। विद्यालय के कोषाध्यक्ष राजेंद्र जागलान ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी विला कुबार्नी ना मिली और न ही मिल सकती है। आज



भी अगर आप पुराने रीति रिवाजों, बुराईयों से आजादी चाहते हैं तो आपको पुराने विचारों की कुबार्नी देनी पड़ेगी। सफल विद्यार्थी को नौद की कुबार्नी देनी पड़ेगी। ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छे चरित्र पाने के लिए बुरी संगति की कुबार्नी देनी पड़ेगी। राजेंद्र जागलान ने हमारे देश की आजादी में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के योगदान के बारे में बच्चों को बताया और उन्हें उनके जीवन से प्रेरणा लेने को कहा।

न्यूज फ्लैश

गांजे के साथ दो युवक पकड़े

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
तीन किलो से ज्यादा गांजे के साथ पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना बलदेव पुलिस ने दो किलो 100 ग्राम गांजे सहित होशियार पुत्र सुग्रीव सिंह निवासी ग्राम अशोक नगर थाना बलदेव को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक थाना बलदेव संजय कुमार त्यागी के मुताबिक आरोपित को तलफी गद्दी गांव से आगे निमाणाधीन पुल से यमुना पुल की तरफ से गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना मंगोरा पुलिस ने एक किलो 150 ग्राम गांजे सहित जीतू उर्फ जितेन्द्र निवासी ग्राम ऊंचा गांव थाना मंगोरा गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष मंगोरा पुष्पेन्द्र कुमार के मुताबिक आरोपित जीतू को लालपुर नहर पुल के पास मथुरा सौख रोड से किया गिरफ्तार है।

17 लेखपाल, संग्रह अमीनों को मिली प्रोन्नत

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने जनपद की विभिन्न तहसीलों में तैनात 17 लेखपाल, संग्रह अमीनों को प्रोन्नत कर राजस्व निरीक्षक पद पर तैनात किया है। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा मांट तहसील निवासी व छाता तहसील में तैनात कुंजबिहारी लाल को राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नत करते हुए तहसील गोवर्धन में नवीन तैनाती प्रदान की है। इसी प्रकार तहसील के निवासी जिलेदार को गोवर्धन से मथुरा भेजा गया है। मांट के रहने वाले व इसी तहसील में कार्यरत विजय कुमार को अब मथुरा तहसील भेजा गया है। इसी प्रकार मांट निवासी व इसी तहसील में तैनात राधेश्याम को छाता में तैनात किया गया है। इसके अलावा महावन निवासी भगत सिंह को उसके तैनाती क्षेत्र मथुरा से मांट भेजा गया है। कानपुर निवासी हरिओम गौतम को गोवर्धन से मांट भेजा गया है। हरिश्चंद्र को गोवर्धन से छाता, राधाराम को उनकी तैनाती क्षेत्र मथुरा से गोवर्धन, रतन सिंह को गोवर्धन से मांट, सीताराम को मथुरा से महावन भेजा गया है। कमल सिंह को उनके तैनाती क्षेत्र मांट से छाता, बेचन सिंह को मांट से छाता, योगेश कुमार को गोवर्धन से मांट, गोविन्द सिंह को मांट से छाता, बृजभूषण अवस्थी को गोवर्धन से छाता, खेमचंद को तैनाती क्षेत्र छाता से गोवर्धन व हरिश्चंकर को मांट में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। प्रोन्नत राजस्व निरीक्षकों को तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अपर जिलाधिकारी ने जारी सूची को संबंध उपजिलाधिकारियों को भेजते हुए निर्देश जारी किये गये हैं कि वह अपनी तहसीलों में कार्यरत कर्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर उनके तैनाती की तहसील में प्रोन्नत पद पर योगदान करने तथा अपनी तहसील में योगदान प्रस्तुत करने वाले कर्मिकों को रिक्त पद पटल पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए उन्हें तत्काल अवगत कराये।

डीएम ने किया वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) योगानंद पांडेय ने ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वेयर हाउस की साफ सफाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी एवं निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाद के वेयर हाउस में मिट्टी भरवाने के लिए एस्टीमेट बनवाए और भारत निर्वाचन आयोग से पत्राचार कर इस कार्य को कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी कमरों में रखी ईवीएम का अवलोकन किया। नई आई ईवीएम की जानकारी प्राप्त की। वेयरहाउस की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। निरीक्षण में विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पांच अक्टूबर को भाकियू चढ़नी सौपेगी झाम

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
वृंदावन शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू चढ़नी के पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर महानगर की अनेक समस्याओं के निस्तारण की मांग की जाएगी, यदि समस्याओं का निस्तारण एक हफ्ते में नहीं किया जाता है। नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। मंडल अध्यक्ष नमवीर सिंह तोगर ने कहा कि मथुरा वृंदावन नगर निगम बनने के बाद नगर निगम ने नगर के वाशियों से सुविधा मुहैया कराने के दावे किए थे। लोगों को तो सुविधा नहीं मिल पा रही है।

ठगी: वक्त के साथ सोने की ईंट बेचने वालों ने बदल लिये तौर तरीके

क्राइम

8 मथुरा पुलिस के आलाधिकारियों के मुताबिक इन दिनों कभी सोने की ईंट बेचने वाले अलग कर रहे हैं।



मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया यूपी राजस्थान की सीमा के आसपास पसरे मेवात क्षेत्र में कभी सोने की ईंट बेचने खरीदने के नाम पर ठगी का धंधा चलता था। लोग ठगों के झांसे में न आए इसके लिए पुलिस जगह जगह होर्डिंग बैनर तक लगाती थी। अब सोने की ईंट बेचने वालों ने ठगी के तौर तरीके बदल लिए हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में सोने की ईंट बेचने वाले क्या कुछ कर रहे हैं इसका खुलासा मथुरा पुलिस ने किया है। बरसाना क्षेत्र में पकड़े गये दो साइबर ठगों वसीम पुत्र सुब्बा निवासी ग्राम हाथिया थाना बरसाना तथा

सैकम पुत्र असरून निवासी नसवारी थाना गाँवदंगड़ा जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार एंड्रॉइड मोबाइल फोन, पांच वीआई कंपनी की इनएक्टिव सिम कार्ड, पांच एटेल कम्पनी की इनएक्टिव सिमकार्ड, छह फर्जी आधार कार्ड, दो नटराज कंपनी के फर्जी एमप्लॉयी आईडी कार्ड, दो

एफसीआई कंपनी के फर्जी एमप्लॉयी आईडी कार्ड, दो पेंशन विभाग के फर्जी एमप्लॉयी आईडी कार्ड, एक तमचा बरामद हुआ है। इन दोनों साइबर ठगों के बहाने मथुरा पुलिस ने इस पूरी कहानी को उजागर किया है। मथुरा पुलिस के आलाधिकारियों के मुताबिक इन दिनों कभी सोने की ईंट बेचने वाले बहुत कुछ अलग कर रहे

हैं। अब ये लोग फर्जी आईडी पर सिम निकलवाते हैं तथा गूगल से चावल, चीनी व स्क्रैप के सप्लायर का नम्बर प्राप्त करते हैं। फर्जी आईडी पर प्राप्त सिमों से इन नम्बरों पर सम्पर्क करते हैं तथा सस्ते दामों में चीनी, चावल व स्क्रैप आदि खरीद कराने के लिए झांसे में ले लेते हैं। इन सप्लायरों के विश्वास में लेने के लिये अपनी फर्जी फर्म के कागजात एवं फर्जी आई कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। विश्वास होने पर एडवांस के रूप में इन लोगों से 50 हजार से एक लाख रुपये तक ऑनलाइन अपने खाते में डलवा लेते हैं। प्रभारी निरीक्षक थाना बरसाना अरुण कुमार बालियान के मुताबिक इसके बाद इन सप्लायरों को फर्जी साइबर ठगों के बहाने मथुरा पुलिस ने इस पूरी कहानी को उजागर किया है। मथुरा पुलिस के आलाधिकारियों के मुताबिक इन दिनों कभी सोने की ईंट बेचने वाले बहुत कुछ अलग कर रहे

लोगों को विश्वास दिलाने के लिये फर्जी सरकारी आईडी कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से इन लोगों के भेज देते हैं। जिससे लोग इनके झांसे में आकर ऑनलाइन एडवांस पेमेंट कर देते हैं तथा इसी क्रम में इंस्टाग्राम एप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी कंपनी नौकरी का झांसा देते हैं। पकड़े गये दो अभियुक्तों के को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि ये लोग नटराज पेंसिल घर पर बैठकर पैक करने की नौकरी का झांसा देकर प्रचार प्रसार किया जाता है। जिससे भोले भाले लोगों को झांसे में आकर दिये मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करते हैं अभियुक्त उन लोगों से उनके आधार कार्ड व 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर ले लेते हैं। फिर फर्जी नटराज कंपनी की एमप्लॉयी आईडी कार्ड बनाकर उसको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। इन लोगों से व्हाट्सएप पर जो आधार कार्ड प्राप्त होते हैं अपना फोटो बदल कर

नकली आधार कार्ड बना लेते हैं। जिसका इस्तेमाल फर्जी सिम कार्ड लेने व झांसे में आये लोगों को अपनी असली पहचान छिपाने के लिये फर्जी आधार कार्ड व बरामद नटराज आई डी कार्ड व्हाट्सएप पर भेज देते हैं जिससे लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाता है इसी क्रम में रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये मिल जाने के बाद अभियुक्त लोगों के घर पर नटराज कम्पनी के सामान (पेन, पेंसिल डिब्बे व अन्य पैकिंग सामान) को भेजने के नाम पर 6000 रुपये डिलीवरी चार्ज के रूप में अपने फर्जी खातों में डलवाते हैं। फिर जब सामने वाले को शक होता है तो अपना सिम निकाल कर तोड़कर फेंक देते हैं और पुनः फर्जी आधार कार्ड पर प्राप्त नई सिम का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। अभियुक्तगण पूर्व में जिला अलवर राजस्थान से भी इसी प्रकार की घटना में जेल जा चुके हैं।

करोड़ों खर्च के बाद भी धंसने लगा मार्ग

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
सरकार स्थानीय जनता की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर पक्की सड़कें तो बनावा रही है, लेकिन ये सड़कें लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। जहां पर जनता के लंबे संघर्ष के बाद करोड़ों रुपये की लागत से सड़क निर्माण का कार्य तो हो गया लेकिन इस सड़क की क्वालिटी सवालों के घेरे में आ गई है। इसके पीछे का कारण है कि सड़क निर्माण के कुछ माह बाद ही टूटने लगी है। ऐसे में अब लोग जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। मथुरा से गोवर्धन होते हुए राजस्थान की सीमा तक 25 किलोमीटर फोरलेन सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क की हालत खस्ता होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए वर्ष 2016 में फोरलेन सड़क निर्माण का 138 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। जो कि तीन महीने पहले पूर्ण हुआ है। लेकिन निर्माण में घोटाले पोल खेलता मार्ग, अर्डींग पुलिसिया



के समीप धंस गया है। मथुरा गोवर्धन मार्ग पर रोजाना हजारों से अधिक संख्या में वाहनों का आवागमन बना रहता है, यहां गोवर्धन परिक्रमा और दर्शन करने के लिए श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च कर मथुरा गोवर्धन मार्ग को फोरलेन बनवाया गया लेकिन अब यह फोर लाइन सवालों के घेरे में है। यहां सड़क बनने के कुछ माह बाद ही जमीन में उसने लगी है। जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्थानीय प्रेम सिंह का कहना है कि उनके जानवरों के पैर भी यहां कई बार फंस चुके हैं। वाहनों के फंस्ने पर दुर्घटना हो सकती है।

वन विभाग की टीम ने पेड़ों को काटना रुकवाया

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
गुरुवार को थाना क्षेत्र बलदेव के गाँव पटलौनी में स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में कई नीम और पीपल के छायादार वृक्ष काटे जा रहे थे और बाकी और काटने की तैयार चल रही थी तभी वन विभाग के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पटलौनी ग्राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान से मौके पर एक नीम के हरे वृक्ष को काटते हुए कुछ लोग मिले जिनके पास से वृक्ष काटने वाले औजार, कटे हुए नीम के वृक्ष की टहनियां तथा गाड़ी बरामद की है तथा संबंधित बलदेव थाने में दोषियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करवा कर पृथक्ता की जा रही है।

खेतों में जलभराव की समस्या से त्रस्त किसान मोबाइल टावर पर चढ़े

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
गुरुवार की अलसुबह प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उस समय उड़ गई जब उन्हें सूचना मिली कि सौख क्षेत्र के गांव बछगांव के किसान अपने खेतों से जल निकासी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गए और तब तक टावर से उतरने से मना कर दिया जब तक कि सक्षम अधिकारी उन्हें समस्या का स्थायी समाधान का ठोस आश्वासन न दे दें। गांव बछगांव में खेतों में जलभराव की समस्या दशकों पुरानी है। पिछले कई सालों से बछगांव के किसान इस समस्या से त्रस्त थे। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था लेकिन कोई



समाधान नहीं हो सका। आखिरकार गुरुवार को किसानों के सब्र का बाँध टूट गया और खेतों में जलभराव से पीड़ित किसानों में से दो किसान चंदा और डोरीलाल गांव में ही बने मोबाइल टावर पर चढ़ गए और तब तक उतरने से मना कर दिया जब तक कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। अपनी

मांगों को लेकर किसानों के टावर पर चढ़ जाने की सूचना ने प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ चला फूला दिए। आनन फानन में एसडीएम गोवर्धन दीपिका मेहर और नायब तहसीलदार नीतू सिंह, सीओ गोवर्धन राम मोहन शर्मा, एओ मंगोरा पुष्पेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी सौख संदीप सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किए लेकिन विफल रहे। किसान करोड़ों बजे तक टावर पर ही जमे रहे। इस दौरान तहसील प्रशासन हलाकन रहा। बाद में भाजपा व किसान नेता दीपक चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फोन से जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह से वार्ता की।

प्रशासनिक उपेक्षा और बंजर खेतों ने किसानों को कर दिया आक्रोशित

प्रदर्शन

8 गत 14 सितंबर को बछगांव के किसानों ने तहसील गोवर्धन में धरना प्रदर्शन भी किया था।



माइनर और रजवाहा में ज्यादा पानी आता है तो यह टेल पर ओवर फ्लो हो जाता है। परिणामस्वरूप टेल के आसपास खेतों में पानी भर जाता है। इससे रजवाहा के आस पास के खेतों के किसान पूरे वर्ष जलभराव की समस्या से जूझते हैं। किसानों की मानें तो पिछले दशक से यह

समस्या किसानों के लिए नासूर बन गई है। इसे लेकर गत 14 सितंबर को बछगांव के किसानों ने तहसील गोवर्धन में धरना प्रदर्शन भी किया था। तब प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था लेकिन बाद में कोई समाधान नहीं हुआ। इससे किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। इस बारे में रालोद के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश कुंतल ने बताया कि पीड़ित किसानों के खेत पिछले तीन साल से जलभराव के चलते बंजर बने हुए हैं। तीन साल से खेतों में अन्न का दाना तक नहीं उगा है। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि बलजीत सिंह ने बताया कि जलभराव की समस्या के चलते

गांव के किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। आज तक जल निकासी की कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तब तक किसान इस समस्या से त्रस्त रहेंगे। डा राजवीर सिंह ने बताया कि किसान काफी समय से प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। जब प्रशासन ने अनसुनी कर दी तो किसानों ने हार थक कर यह कदम उठाया है। सहकारी संघ बछगांव के पूर्व अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह ने बताया कि किसानों की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान सुनिया पहलवान, जवाहर सिंह, गुड्डा, फते सिंह, श्यामू, रवि, भोला, राजू आदि मौजूद रहे।

सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन



मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
महासफाई अभियान के दृष्टिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता ही सेवा शुरू हुए अभियान में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा नगर निगम मथुरा वृन्दावन के वृन्दावन कार्यालय में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कार्यक्रम में नगर निगम क्षेत्र के सुरक्षा मित्र जो हर समय हर क्षण नगर के सफाई के लिए दिन रात हमारे घर के बाहर गंदी सड़क एवं नाली की सफाई करते हैं। ऐसे 25 उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को महावीर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त अनुनय झा एवं अपर नगर आयुक्त क्रान्तिशेखर सिंह द्वारा वर्दी, मास्क एवं ग्लब्स वितरित किये गए। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में नगर आयुक्त द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और नन्दगाँव के श्रीजी और ठाकुरजी की तरफ अलग अलग होकर आपस में हँसी मजाक करते हैं। ठाकुरश्रीजी सखियों और ग्वालवालों के संग आपस में लीला में हँसी ठिठोली के मध्य से छीना-झपटी करते हुए यशोदा नंदन ने दही का दान न देने पर वृषभानु नंदिनी और उनकी सखियों की दही से भरी मटकी फोड़ दीं।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
रात के समय एक युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिए भेजा है। भगवान दास निवासी डीग पिछले कुछ सालों से अपने परिवार के साथ पत्नी गुड्डी के मायके थाना मंगोरा के गांव जोगीपुरा में रह रहा था। वह मेहनत मजदूरी कर अपनी परिवार का पालन कर रहा था। वह गांव लोरिहापट्टी के निकट किसी काम से गया हुआ था। तभी किसी अज्ञात वाहन ने भगवान दास को अपनी चपेट में ले लिया। इससे भगवान दास बुरी तरह घायल हो गया। उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिए भेज दिया है।

गवालिन दै दै मोल दही कौ मोकूँ माखन नैक चखार

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
श्रीराधारानी की प्रिय सखी चित्रा के गांव चिकसौली में गुरुवार को मटकी फोड़ दान लीला का आयोजन हुआ। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीराधाजी की सखियों से माखन और दही का दान मांगा, न देने पर उन्होंने मटकी फोड़ दी। इस लीला को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रीराधारानी की क्रीड़ा भूमि बरसाना में राधाष्टमी से आठ दिन तक भगवान की अलग अलग लीलाएं संपन्न होती हैं। इसका समापन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुर्णिमा को महारास पर



होता है। श्रीराधाकृष्ण की प्राचीन लीला स्थली बरसाना के गहवर वन स्थित दो पर्वतों के बीच बनी संकरी गली (संखरी खोर) में मटकी फोड़ दानलीला संपन्न हुई। इस लीला में मुख्य रूप से नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज के लोगों ने भगवान की दानलीला

कोक्षफोड़ देते हैं। भगवान की इस माधुर्यमयी लीला के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मचल पर्वत पर घंटों बैठे रहें। और ब्रजवासी बरसाना और नन्दगाँव के श्रीजी और ठाकुरजी की तरफ अलग अलग होकर आपस में हँसी मजाक करते हैं। ठाकुरश्रीजी सखियों और ग्वालवालों के संग आपस में लीला में हँसी ठिठोली के मध्य से छीना-झपटी करते हुए यशोदा नंदन ने दही का दान न देने पर वृषभानु नंदिनी और उनकी सखियों की दही से भरी मटकी फोड़ दीं।

शहीदे आजम भगत सिंह की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत प्लांग रन का आयोजन

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
शहीदे आजम भगत सिंह का 116 वां जन्मदिन मनाया गया। आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किये। तिरंगा शाखा के जिला प्रमुख सुरेश कुमार सैनी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने डेडमियर नगर स्थित शहीदे आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यांण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शाखा सखियों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि शहीदे आजम भगत सिंह के विचार आज भी



प्रासंगिक हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी को शहीदे ए आजम भगत सिंह के विचारों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए शहीदे आजम भगत सिंह के विचारों का कोई मोल नहीं है। वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर भगत सिंह के विचारों में सांप्रदायिकता एवं जातिवाद के



चंद्र सक्सेना, आदेश शर्मा, पवन सैनी, कमल कुमार बघेल, देवेन्द्र सैनी, शिवचरण पाल, गौरी सैनी, द्वारका प्रसाद, मुरारी लाल बघेल, कुलदीप वर्मा, नवीन अर्जुन, विकास, कलश शर्मा, गणेश्वर खान, साहिल आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने कृष्णा नगर बिजली घर कैम्प

कार्यालय पर शहीदे ए आजम युवाओं के हृदय सम्राट सरदार भगत सिंह को नमन किया। रमेश सैनी, चित्रसेन मौर्य, सरदार भगत सिंह, रमेश सैनी, चित्रसेन मौर्य, धनीराम बाबा, अंकित सागर, आकाश बाबू, राजकुमार सैनी, विनोद बघेल, अतर सिंह इंजीनियर, सौदान सिंह, गुलशन



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा कर प्लांग रन की शुरुआत की। प्लांग रन के माध्यम से मांगों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र करते हुए नगला कोल्हू स्थित ठोस

मथुरा/टीएम एक्शन इंडिया
26 सितम्बर से दो अक्टूबर तक चल रहे 154 घंटे महासफाई अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में नगर आयुक्त अनुनय झा के निर्देशन में अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को वृन्दावन छटीकरा हीरा स्वीट से लेकर चंद्रदोडे मंदिर होते हुए वापस हीरा स्वीट तक पॉस्मको इंडिया के पूर्ण प्रोजेक्ट, द सोशल लैब और नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा समर्थित प्लांग रन का आयोजन किया गया। इस

अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट पर निस्तारण हेतु भेजा गया। इस प्लांग रन के दौरान लगभग 53 किलोग्राम लो वैल्यू प्लास्टिक एकत्रित की गई। प्लांग रन के दौरान 3 रैग पिकर्स को सुरक्षा के लिए पीपीएफ़ किट वर्दी, मास्क एवं ग्लब्स वितरित किये गए।

www.actionindialive.com

चीनी कंपनी लेनोवो के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने चीन की आईटी हब डेवलपर कंपनी लेनोवो और उसकी कुछ संबद्ध इकाइयों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई कर अपवर्चना की जांच के तहत की गई है। लेनोवो के परिसर पर ये जांच अभी जारी है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने लेनोवो और उसकी कुछ संबद्ध इकाइयों पर महाराष्ट्र के मुंबई, हरियाणा के गुरुग्राम और कर्नाटक के बेंगलूर परिसरों में छापेमारी की है। आयकर विभाग के अधिकारियों को लेनोवो पर टैक्स अपवर्चना में संलिप्त होने का संदेह है। यह छापेमारी इस बारे में संभल जुटाने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक परमनल कंप्यूटर बाजार में लेनोवो 24 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2022-23 में लेनोवो ने भारत में 1.9 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया था। देश में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 17 फीसदी है।



पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, कच्चा तेल 98 डॉलर प्रति बैरल के करीब

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव 98 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। वहीं, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर टिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का भाव 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के चौथे दिन शुरूआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.72 डॉलर यानी 0.75 फीसदी उछलकर 97.27 डॉलर प्रति बैरल पर टूट कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडियट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.85 डॉलर यानी 0.91 फीसदी की बढ़त के साथ 94.53 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।



सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा बाजार शुक्रवार को भी खुले रहेंगे

मुंबई/नई दिल्ली। सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाजार में आज खुले हैं और शुक्रवार को भी खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि वित्तीय बाजारों के सुचारु संचालन और लेन-देन को सुनिश्चित करने के



लिए सार्वजनिक हित में सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार 28 और 29 सितंबर को भी खोले रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई के अनुसार भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी 27 सितंबर को की गई थी, जिसका निपटारा 29 सितंबर को होगा। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी पहले 29 सितंबर को की जानी थी, लेकिन अब 28 सितंबर को की जा रही है, जिसका निपटारा 29 सितंबर को होगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अबतक 1.40 लाख से ज्यादा आवेदन: नारायण राणे

नई दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एनएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने के दस दिन के भीतर 1.40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। नारायण राणे ने एक्स पोस्ट पर योजना के बारे में लिखा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। राणे ने बताया कि योजना के शुभारंभ के दस दिन के भीतर इतनी ज्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त होना योजना की सफलता और सर्वोच्च महत्व का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना, हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से



वंचित विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के व्यापक विकास के लिए एक मील का पत्थर संकेत होगी। इसके साथ ही यह उनकी छोड़ें हुई पहचान को बहाल करेगी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। राणे ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, उनके उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। योजना के तहत 18 प्रकार के कारीगरों और

शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये का दैनिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। लाभार्थी 3 लाख तक बिना कुछ गिरवी रखे ऋण के भी पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि इस योजना के माध्यम से कृषिकर्मा भाइयों और बहनों को प्रशिक्षण, टूल किट और बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्रदान किया जाएगा। एनएसएमई प्राय आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन कर सभी योजना का लाभ हमारे विश्वकर्मा भाई-बहनों को प्रदान करेगी।

बायजूस चालू वित्त वर्ष में 3,500 और कर्मचारियों की कट सकता है छंटनी

नई दिल्ली। ऑनलाइन शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस चालू वित्त वर्ष में 3,500 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। कंपनी अपनी टीमों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक ध्यान देने पर विचार कर रही है। कंपनी के एक हजार कर्मचारी पहले से ही नोटिस पीरियड पर हैं, जबकि अन्य एक हजार ने अपने प्रदर्शन सुधार मानकों को पूरा नहीं किया है। पिछले साल कंपनी ने 2,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी के भारतीय परिचालन के सीईओ अर्जुन मोहन कंपनी में बड़े पैमाने में बदलाव कर रहे हैं। इस वजह से एक बार फिर बायजूस 2023-24 में 3,500 कर्मचारियों को छंटनी कर सकता है। इससे पहले कंपनी ने साल की शुरुआत में 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। बायजूस के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बायजू रवींद्र ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि 2,500 कर्मचारियों के बाद कंपनी में आगे कोई और छंटनी नहीं होगी। हालांकि, ये बायजूस की आखिरी छंटनी होगी और पूरी प्रक्रिया अक्टूबर के अंत तक पूरी हो जाएगी।



एनएसई का इवनिंग ट्रेडिंग शुरू करने का प्लान, रात 11.30 बजे तक हो सकती है ट्रेडिंग

नई दिल्ली। गिफ्ट निफ्टी में नॉन ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाने के बाद अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नॉर्मल ट्रेडिंग खत्म होने के बाद शाम के समय एक बार फिर ट्रेडिंग सेशन शुरू करने का मन बना लिया है। जल्द ही शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। इस दौरान निवेशक और कारोबारी पंचूबर एंड ऑफिशियल (एफएंडओ) सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकेंगे। शाम के सेशन में ट्रेडिंग शुरू करने का मूल उद्देश्य निवेशकों और कारोबारियों को ओवरनाइट रिस्क को हेज करने की सुविधा देना है। आगे चलकर

बाजार में ट्रेडिंग होने से ग्लोबल मार्केट में होने वाले कारोबार का घरेलू परिस्थितियों के मुताबिक ओपन होगा, जिससे निवेशकों



असर उसी दिन के कारोबार में दिखने लगेगा और इसका प्रभाव अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसे में अगले दिन घरेलू शेयर बाजार बिना किसी दबाव के

के सत्र में ट्रेडिंग शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य गिफ्ट निफ्टी में भारतीय निवेशकों को ट्रेडिंग का पूरा मौका देने का भी है। गिफ्ट निफ्टी में नॉन ट्रेडिंग आवर्स में भी ट्रेडिंग की शुरुआत हो चुकी है। गिफ्ट निफ्टी में ये ट्रेडिंग घरेलू शेयर बाजार में ट्रेडिंग खत्म होने के बाद होती है। इस वजह से घरेलू निवेशकों को नॉन ट्रेडिंग आवर्स में गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन घरेलू बाजार में भी इवनिंग ट्रेडिंग शुरू हो जाने पर घरेलू निवेशकों को गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग करने का पूरा मौका मिल सकेगा। हालांकि बाजार के कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रेडिंग का समय बढ़ाने या इवनिंग ट्रेडिंग की सुविधा शुरू करने से कारोबारियों और ब्रोकरों पर प्रेरित कामों ज्यादा बढ़ जाएगा। धामी सिन्धोस्टीज के खास प्रेसिडेंट प्रशांत धामी के मुताबिक बंद प्रेशर की समस्या के साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कई कार्यगत और नीतिगत मुद्दों पर भी विचार करना होगा। धामी का मानना है कि अगर ट्रेडिंग टाइम रात 11:30 बजे तक कर भी दिया जाए, तब भी बॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग के पहले ही इंडियन मार्केट क्लोज हो जाएगा। ऐसा होने से निवेशकों और कारोबारियों को ओवरनाइट रिस्क को हेज करने की सुविधा प्रयोगिक तौर पर नहीं मिल पाएगी।

जेम पोर्टल से तीन साल में हटाई गई चीन की सैकड़ों कंपनियों, मंच पर पड़ोसी देशों के कोई उत्पाद नहीं

नई दिल्ली। सरकारी खरीद मंच जेम पोर्टल से पिछले तीन साल में चीन से जुड़ी सैकड़ों कंपनियों को हटाया गया है। ये कंपनियां चीन के नागरिकों के स्वामित्व वाली हैं या चीनी इकाई की इनमें उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। जेम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रशांत कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि उन कंपनियों के सरकारी खरीद मंच पर कोई उत्पाद नहीं है, जिनकी जमीनी सीमा भारत से मिलती है। सिंह ने कहा, हमने जेम पर से बहुत सारे फर्जी विक्रेताओं को हटा दिया है। खासकर जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के संबंध में व्यव विभाग के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके तहत, कुछ देशों के उत्पादों का उपयोग जेम मंच पर नहीं किया जाना है। उन्होंने कहा कि कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर हम हिस्सेदारी पैटर्न पर गौर करते हैं और यह देखते हैं कि क्या कोई जमीनी सीमा साझा करने वाला

देश है। फिर उसे मंच से हटा दिया जाता है या अयोग्य घोषित किया जाता है। जेम सीईओ ने कहा कि यह एक बड़ी संख्या है, जिसे हमने मंच से हटा दिया है। इस कदम से जो ब्रेकिंग गैरि रूप से प्रभावित हुई है, उनमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, चिकित्सा उपकरण आदि शामिल हैं। ये वे कंपनियां थीं, जिसका संबंध किसी भी तरह से चीन से था।

जेम तीन अक्टूबर से टीसीएस के हवाले जेम को नया रंग-रूप देने के लिए 3 अक्टूबर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को रणनीतिक भागीदार के रूप में नियुक्त किया है। मौजूदा कंपनी इंटेलिजेंट डिजाइन अरोना की अनुबंध अवधि खत्म होने वाली है। कंपनियों को बाहर करने में नियमों का पूरी तरह पालन जेम सीईओ ने कहा कि हम सरकारी खरीद मंच से चीनी कंपनियों को हटाने से पहले प्रत्यक्ष श्रेयधारित के अलावा विक्रेताओं

सीईओ सुजमैन बोले- भारत विकासशील देशों की सबसे अहम आवाज, वैश्विक नेतृत्व में सक्षम

नई दिल्ली। बिल एंड मेरिलिन गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन ने दक्षिणी गोलार्ध में उपरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत के समर्थन की सराहना की और इसे ग्लोबल साउथ की सबसे अहम आवाज करार दिया। साथ ही कहा है कि भारत वैश्विक नेतृत्व करने में सक्षम है। न्यूज एजेंसी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुजमैन ने कहा कि भारत में विकसित मॉडल वैश्विक स्तर पर, खासकर ग्लोबल साउथ में प्रगति को गति दे सकते हैं। भारत स्पष्ट रूप से ग्लोबल साउथ की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा देश है, जहां हमने (गेट्स फाउंडेशन) 20 वर्षों में विकसित की गई मजबूत साझेदारियों के अलावा, भारत में बेहतर स्वास्थ्य और विकास परिणामों को चलाने में मदद करने के लिए भारत में काम किया है। अब हम कृषि में

अदाणी पोर्ट्स एक और कर्ज उतारने की तैयारी में, 9.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर बॉन्ड खरीदेगी वापस

नई दिल्ली। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) 2024 में बकाया 19.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने की जानकारी दी है। गौतम अडानी द्वारा संचालित समूह अमेरिकी वित्तीय शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग उसको निशाना बनाए जाने के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एपीएसईजेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वह अपने नकदी भंडार का इस्तेमाल करके 2024 में देय 19.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के



बॉन्ड वापस खरीदेगी। बयान के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर बली-खालों में धोखाधड़ी और

शेयर बाजार में लौटी तेजी, निवेशकों को डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा

नई दिल्ली। लगातार 6 कारोबारी दिन तक दबाव का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी लौटती नजर आई। आज कारोबार के दौरान शेयर बाजार ने शुरूआती गिरावट से उबर कर जोरदार उल्लास लगाई और मजबूती के साथ बंद हुआ। आज सेंसेक्स ने निचले स्तर से 620 अंक से अधिक और निफ्टी ने 175 अंक से अधिक की रिकवरी की। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 0.26 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज के कारोबार के दौरान कैपिटल गार्ड्स, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, इंडियन स्टैल और रिफ्लेक्टि सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी होती रही। इसी

तरह एनर्जी और आईटी इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में दबाव नजर



आया। ब्रॉडर मार्केट में भी आज चौतरफा खरीदारी होती नजर आई, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.76 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

कैपिटल गार्ड्स आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 319.72 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया, जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटल गार्ड्स 318.15 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 3,799 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,008 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,640 शेयरों में गिरावट का रुख रहा और 151 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,039 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,142 शेयर मुनाफा कमाकर हरे निशान में और 897 शेयर नुकसान उठकर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 19 शेयर बढ़त के साथ और 11 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी में शामिल शेयरों में से 31 शेयर हरे निशान में और 19 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 19.83 अंक की कमजोरी के साथ 65,925.64 अंक के स्तर पर खतम हुआ। पाकिस्तान को रूस और पेट्रोलियम दोनों की जरूरत है और उसने फरती बार खाड़ी क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से उसे आपूर्ति प्रदान करता है से परे जाकर अपनी खरीद में विविधता लाने की कोशिश की है।

सरकार का जलवायु रोधी किस्मों की खेती का लक्ष्य, अब होगी गर्मी झेल सकने वाले गेहूँ की फसल

नई दिल्ली। अल नौनो जैसे हालात के बीच सरकार ने अगले महीने से शुरू होने वाले रबी सत्र में गेहूँ की बुवाई के कुल लक्ष्य के 60 फीसदी हिस्से में जलवायु प्रतिरोधी किस्मों की खेती करने का लक्ष्य रखा है। देश में गेहूँ की पैदावार का कुल लक्ष्य 3 करोड़ हेक्टेयर है। केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा ने रबी फसलों की बुवाई की रणनीति तैयार करने के लिए आर्गैजिज जलवायु प्रतिरोधी बाजों के इस्तेमाल को है। इसीलिए, सरकार ने इस साल गर्मी झेल सकने वाली गेहूँ की किस्मों की उपाज खले रखे का इरादा रखकर 60 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2021 में जल्द यहीं आने से गेहूँ की पैदावार पर पड़े असर को देखते हुए 2022 में किसानों को 47 फीसदी तक से गर्मी झेलने वाली किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था।

पाकिस्तान को रूस से एलपीजी की पहली खेप मिली, इरान के सटक्स सेज के रास्ते भेजा गया

नई दिल्ली। पाकिस्तान को रूस से एलपीजी की पहली खेप मिली है जो नकदी सटक से जुड़ा रहे इस देश की दूसरी बड़ी रूसी ऊर्जा खरीद है। इस्लामाबाद में रूसी दूतावास ने मंगलवार को कहा कि 100,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खेप रूस को इरान में कच्चे तेल की पहली डिलीवरी मिली थी। पाकिस्तान को दी गई थी। हालांकि, उसने इरान की भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी और यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया कि एलपीजी की वीमट कितनी है या इस पर रूट दी गई है या नहीं। रूसी दूतावास ने कहा कि अगली खेप के लिए विचार-विमर्श जारी है। मंगलवार को पाकिस्तान को एलपीजी के रूप में दूसरी खेप मिली है। पाकिस्तान को इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत जून में कच्चे तेल की पहली डिलीवरी मिली थी। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने रूसी कच्चे तेल के लिए चीन को मुद्रा में भुगतान किया था, लेकिन सौदे के मूल्य का खुलासा कभी नहीं किया गया था। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के

अनुसार, पाकिस्तान के बहरी भुगतानों में ऊर्जा आपात का अधिकतर हिस्सा है और रूस से रिखयली आपात एक राहत प्रदान करता है क्योंकि इस्लामाबाद भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या के साथ आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे उसके बाहरी ऋण पर चूक का खतरा है। पाकिस्तान को रूस और पेट्रोलियम दोनों की जरूरत है और उसने फरती बार खाड़ी क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से उसे आपूर्ति प्रदान करता है से परे जाकर अपनी खरीद में विविधता लाने की कोशिश की है।

हालांकि, पहले घंटे के कारोबार के बाद से ही खरीदारों ने लिक्विडी शुरु कर दी, जिससे इस सूचकांक की खल में तेजी आ गई। बाजार में लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से शाम 3 बजे के करीब ये सूचकांक निचले स्तर से 622.31 अंक की रिकवरी करके 226.80 अंक की मजबूती के साथ 66,172.27 अंक के स्तर पर पहुंच गया। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 173.22 अंक की तेजी के साथ 66,118.69 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने 27.65 अंक की गिरावट के साथ 19,637.05 अंक के स्तर से आज के कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के बाद शुरुआत की घंटे के दौरान बिकवाली के दबाव की वजह से ये सूचकांक 110.70 अंक गिर कर 19,554 अंक के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी शुरू हो गई। लगातार हो रही लिक्विडी के सपोर्ट से आज का कारोबार खल होने के छोड़ें देर पहले ये सूचकांक निचले स्तर से 176.70 अंक की रिकवरी करके 66 अंक की मजबूती के साथ 19,730.70 अंक के स्तर पर पहुंच गया। पूरे दिन हुई खरीद बिक्री के बाद निफ्टी ने 51.75 अंक की बढ़त के साथ 19,716.45 अंक के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया।

यूक्रेन को मदद का विरोध कर निशाने पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार रामास्वामी
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार विवेक रामास्वामी उस समय अन्य दावेदारों के निशाने पर आ गए, जब उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी मदद का विरोध कर दिया। विवेक ने रिपब्लिकन पार्टी की एक डिबेट के दौरान कहा कि वह यूक्रेन को आर्थिक मदद देने के खिलाफ हैं और वह रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया के सिमी वैली स्थित रीजनल लाइवरी एंड म्यूजियम में रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की डिबेट में विवेक रामास्वामी ने यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अमेरिका की मदद का विरोध किया। रामास्वामी ने कहा कि चीन असली दुश्मन है और हम यूक्रेन को युद्ध में समर्थन देकर रूस को चीन के पाले में धकेल रहे हैं। हमें इस संकट के समाधान के लिए कोई बेहतर योजना बनानी चाहिए। डिबेट में यूक्रेन के मामले पर रामास्वामी अलग-थलग पड़ गए और अन्य उम्मीदवारों ने इस मुद्दे पर रामास्वामी के खिलाफ हमला बोल दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेस ने कहा कि अगर पुतिन को यूक्रेन पर कब्जा करने दिया जाता है, तो यह एक तरह से चीन के लिए हरी झंडी होगी कि वह ताइवान पर हमला कर दे। अन्य उम्मीदवार और न्यूजस्ती के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने कहा कि यूक्रेन में लड़ने के लिए चीन, रूस को मदद कर रहा है। ईरान, रूस को हथियार उपलब्ध कर रहा है और उत्तर कोरिया भी ऐसा कर रहा है। अगर हम पुतिन को यूक्रेन लेने देंगे, तो अगला नंबर फिर पोलैंड का होगा।

भारतीयों को दूतावास ने जारी किए 10 लाख से अधिक वीजा, 2019 की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक आवेदन

वाशिंगटन। भारत में अमेरिकी मिशन ने 2023 में 10 लाख गैर-आव्रसी वीजा आवेदनों को संसाधित करने के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को घोषणा की कि मिशन ने 2022 में संसाधित मामलों की कुल संख्या को पहले ही पार कर लिया है और महामारी 2019 से पहले की तुलना में लगभग 20% अधिक आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है।

भारत से रिश्ते हुए और मजबूत
भारत में राजदूत एरिक गासोटी ने दूतावास के एक्स(पूर्व में टिक्टर) पर पोस्ट कर कहा, 'भारत के साथ हमारी साझेदारी अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों सहित दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। हमारे लोगों के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, और हम आने वाले महीनों में अधिक से अधिक भारतीय आवेदकों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा करने और अमेरिका-भारत मित्रता का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर देने के लिए वीजा कार्य की रिकॉर्ड-सेटिंग मात्रा जारी रखेंगे'।

किताब है रोजगार वीजा आवेदकों का आंकड़ा
वैदा कि पिछले वर्ष, 1.2 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अमेरिका का दौरा किया, जिससे यह दुनिया में सबसे मजबूत यात्रा संबंधों में से एक बन गया। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक भारतीय अब दुनियाभर में सभी वीजा आवेदकों में से 10 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सभी छात्र वीजा आवेदकों में से 20% पीएसडी और सभी एच एंड एल-बीए (रोजगार) वीजा आवेदकों में से 65% पीएसडी शामिल हैं। अमेरिकी वीजा की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए, दूतावास ने कहा कि अमेरिका भारत में अपने प्रतिबन्धन में भारी निवेश कर रहा है। पिछले वर्ष में, मिशन ने पहले से कहीं अधिक वीजा प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अपने स्टाफ का विस्तार किया है।

निजजट हत्या मामला: पीएम टर्कडे पर मड़के भारतीय-कनाडाई व्यवसायी, भारत पर लगाए गए आरोपों को बताया गैर-जिम्मेदारना

ओट्टावा। कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने खलिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन टर्कडे द्वारा भारत पर लगाए आरोपों को निरा कर दिया है। उन्होंने इसे गैर-जिम्मेदारना कर देते हुए कहा कि हिंदू-सिख संयुक्त प्रभावित न हो इच्छित दोष्य बयान दे सकते थे। खलिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बाद भारत-कनाडा के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टर्कडे के बयान को भारतीय-कनाडाई व्यवसायी रवि श्या ने गैर-जिम्मेदारना कर दिया। उन्होंने कहा, कनाडाई संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन टर्कडे द्वारा किया गया घोषणा कुछ ऐसा था जिसे अहसास से नजरअंदाज किया जा सकता था। खलिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर भारत पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जब वह घोषणा की गई, तब कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय सतर्क था। इस घोषणा ने तत्काल प्रभाव पैदा कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि वे संकट में हैं। वह डर गए थे, क्योंकि जो घोषणा संसद में हुई उससे यही लग रहा था कि भारत सरकार ने निज्जर की हत्या करवाई थी, जो सच नहीं था। सच कुछ और है। कनाडा में हिंदू और सिख शांति से रहते हैं और प्रधानमंत्री टर्कडे द्वारा जारी बयान में जो कहा गया वह बहुत गैर-जिम्मेदारना था।

उत्तर कोरिया ने सविधान संशोधन करके बनाया परमाणु हथियारों के लिए नया कानून

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों के विकास को रफ्तार न रकने देने के लिए संविधान संशोधन किया है। उत्तर कोरिया ने नया कानून बनाकर परमाणु हथियारों के तेज विकास की नीति को अब अपने संविधान में शामिल कर लिया है। अब कानून बनने के बाद उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के विकास में तेजी आ सकती है।

उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जो-उन ने उत्तर कोरियाई संसद (सुप्रीम पीपल्स असेंबली) के सत्र के दौरान जानकारी दी कि उत्तर कोरिया की परमाणु बल तैयार करने की नीति को अब देश के आधारभूत कानून की तरह स्थायी बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य करने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने परमाणु हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने और परमाणु हमले की क्षमताओं

में विविधता लाने के साथ ही उन्हें सेना की विभिन्न सेवाओं में तैनात यह कदम उठा रहे हैं। उत्तर कोरिया का यह कदम



करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका और उसके सहयोगियों से प्योंगयांग को मिल रही चुनौती और इसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की मंशा के मद्देनजर

लिए अमेरिका से आर्थिक मदद मिलनी है। किम जो-उन हाल ही में रूस के दौर से लौटे हैं, जहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। रूस दौरे पर किम जो-उन ने कई हथियार निर्माता कंपनियों के प्लांट्स का दौरा किया।

किम जो-उन का यह दौरा ऐसे समय हुआ, जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है कि नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच नागरिक परमाणु कार्यक्रम की तकनीक के ट्रांसफर पर बातचीत हो सकती है। ऐसी भी आशंका है कि उत्तर कोरिया इस डील के तहत मिले मैटेरियल का इस्तेमाल अपने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ाने में भी कर सकता है।

नेपाल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भूमि घोटाले में 15 दिनों के भीतर मुकदमा दायर करने का आदेश

काठमांडू। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित भूमि घोटाला मामले में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों-माधव कुमार नेपाल और डा. बाबुराम भट्टराई के खिलाफ 15 दिन के भीतर मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित जांच आयोग को उसके रवैए को लेकर फटकार भी लगाई है।

ललिता निवास कांड के नाम से चर्चित इस भूमि घोटाले की जांच के लिए गठित अदालतियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को आरोपित नहीं बनाया है, बल्कि उनका नाम सरकारी गवाह के रूप

में शामिल किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नीतिगत निर्णय में क्लीनचीट दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस



सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को किस आधार पर किनेद शर्मा की सिंगल बेंच जांच आयोग द्वारा दाखिल चार्जशीट में दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम

अरोपित के तौर पर शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में कहा गया है कि ललिता निवास कांड एक सरकारी नीतिगत भ्रष्टाचार का मामला है जसमें पूरी सरकार शामिल थी। जिस घोटाले के लिए संबंधित मंत्रालय के ऊपर से नोचे तक के सभी कर्मचारियों को दोषी बनाया गया है, जिस घोटाले के लिए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव ले जाने वाले मंत्रालय के सचिव, तत्कालीन चर मंत्री तक को आरोपी बनाया गया है, ऐसे में कैबिनेट से अंतिम निर्णय करने वाले प्रधानमंत्री का नाम चार्जशीट में क्यों शामिल नहीं किया गया?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोली रुचिरा कंबोज, भारत हमेशा अफगानों के समर्थन में आवाज उठाता रहेगा

न्यूयॉर्क। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, स्थायित्व और मानवीय समर्थन को लेकर अपना दृढ़ संकल्प फिर दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत अफगानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा।

अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वीरिंग में रुचिरा कंबोज ने बुधवार को अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए प्रकाश डाला। भारत के स्थायी मिशन की ओर से एक्स पर खले पोस्ट में कहा गया कि स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा ने कहा, 'भारत की

सही हितधारक है। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के प्रति



भारत का सामूहिक दृष्टिकोण सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में व्यक्त किया गया है, जिसे कबूल के पतन और उसके बाद तालिबान के कब्जे के बाद 30 अगस्त, 2021 को अपनाया गया था।

पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला, वापस भेजे जाएंगे 11 लाख अफगान शरणार्थी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सत्ता संभाले तालिबान के बीच बढ़ते मतभेदों की गाज पाकिस्तान में शरण पाए अफगान शरणार्थियों पर गिरने वाली है। पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 11 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ने और इसके लिए जिम्मेदार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर अंकुश के मामले पर पाकिस्तान सरकार और तालिबान के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। हाल ही में अफगानिस्तान सैन्या पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान की सेना ने तोखम सीमा को बंद करके कड़ा संदेश दिया है। अब पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया कि अफगानिस्तान से आए 11 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा। इस फैसले पर सख्ती से अमल की बात कही गई है। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तानी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये अफगानी अवैध रूप से उनके देश में रह रहे हैं। बताया गया कि

अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान सरकार के आने के बाद कर लाख अफगानी पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसे हैं। इनके अलावा सात लाख ऐसे अफगानियों की पहचान हुई है, जो



पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं। इन 11 लाख अफगानी शरणार्थियों के पास न तो वीजा है और न ही पाकिस्तान में रहने के लिए वैध दस्तावेज हैं। पाकिस्तानी कैबिनेट ने इन अफगानियों को वापस भेजने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने का आदेश दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पाकिस्तान के इस फैसले के बारे में बता दिया गया है।

तीन तलाक की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, सम्बन्ध विच्छेद के लिए मुसलमानों को विशेषाधिकार नहीं

काठमांडू। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए कहा कि इस्लामिक समुदाय में तीन तलाक की प्रथा को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नेपाल के मौजूदा कानूनों के अनुसार तलाक के अलावा अन्य प्रथाएं व किसी समुदाय विशेष की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस्लामिक शास्त्र कानून के आधार पर दिया गया तलाक महिलाओं के साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तान और हरिप्रसाद फुलाल की संयुक्त पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि नेपाल में इस्लामिक मान्यता के अनुसार दिए गए तलाक के आधार पर दूसरी शादी की छूट नहीं है। अदालत ने सभी खिलाफ उनकी पहली पत्नी सावित्रा तनवीर हसन द्वारा दायर और इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर तलाक होने वाला निकाह बहुविवाह ही माना जाएगा। अदालत ने कहा कि नूरान में महिलाओं के साथ भेदभाव करने और पुरुषों को विशेषाधिकार देने की बात कहीं नहीं लिखी है इसलिए तीन तलाक का प्रसंग ही गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को लेकर दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की उच्चतम न्यायालय ने भी तीन तलाक को अस्वीकारिक घोषित कर दिया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-बिद्दत' के मुद्दे को एक अपराधिक कृत्य माना है और इसे अवैध घोषित कर दिया है।

रिट पर निचली अदालतों के फैसले में सुधार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तलाक और बहुविवाह में अंतर होने की बात स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बहुविवाह करत नेपाल में कानून ज़ुर्म है



धर्मों और धार्मिक आस्था को मानने वाले पुरुषों के लिए समान कानून लागू होने की बात कही है। तलाक के बाद दूसरी शादी को मान्यता को लेकर काठमांडू के रहने वाले मुन्व्वर हसन के

पाकिस्तान में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से पांच बच्चों समेत आठ की मौत

इस्लामाबाद। पूरी दुनिया के आतंकियों की पनाहगाह बना पाकिस्तान अब इसी वजह से मुसीबतों में गिरा जा रहा है। अब रॉकेट लॉन्चर में लगाया जाने वाला गोला (शेल) फटने से पांच बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी। बच्चे उस रॉकेट शेल से खेल रहे थे और वह पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर जिले की कंधकोट तहसील के जांगी सुन्जवाई गोथ गांव के एक घर में दोपहर तेज धमाका होने से एक ही परिवार के पांच बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। काशमोर-कंधकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित खोसा ने बताया कि बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक रॉकेट शेल मिला, जिसे वे एक पुरुष सहित आठ लोगों की



खिलौना समझकर घर ले गए। घर में बच्चे उससे खेल रहे थे, तभी वह फट गया। धमाके में परिवार जान चली गई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और आगे की जांच चल रही है। कंधकोट सिविल अस्पताल में अस्पष्ट स्थिति घोषित कर दी गई है। सिंध के मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति मकसूद बकर ने प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि प्रांत के काशमोर जिले की कंधकोट तहसील के जांगी सुन्जवाई गोथ गांव में एक रॉकेट लॉन्चर कैसे पहुंचा। उन्होंने पूछा है कि क्या कच्चे इलाक़ों में तस्करी कर लाए जा रहे हथियारों का कोई जख़ीरा था? क्या गोथ गांव में डकैतों को समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं? घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बकर ने महानिरीक्षक को घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

यूएसए: रिपब्लिकन पार्टी की डिबेट का ट्रंप के सहयोगी ने उड़ाया मजाक, बोले- इन पकाऊ बहसों पर रोक लगानी चाहिए

वाशिंगटन। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी डिबेट कैलिफोर्निया के सिमी वैली म्यूजियम और लाइवरी में हुई। खास बात ये है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डिबेट से भी भाग्यवान हैं। ट्रंप के एक सलाहकार ने तो इन डिबेट पर ही सवाल खड़े किए हैं और इसका मजाक उड़ाया है। ट्रंप के सलाहकार क्रिस लाविटा ने कहा है कि 27 सितंबर की डिबेट एक मजाक है और यह उम्मीदवारों का एक इंटरव्यू जैसा है। डिबेट को बताया पकाऊ और महत्वहीन किम लाविटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'आज की रिपब्लिकन पार्टी की डिबेट भी फ्लूट्टी डिबेट की तरह बहुत पकाऊ और महत्वहीन थी। डिबेट के दौरान कुछ भी अलग नहीं कहा गया। पार्टी की उम्मीदवारों में डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा है और इस डिबेट से उसमें कुछ

बदलाव नहीं आएगा। अब आगे की डिबेट पर तुरंत रोक लगानी चाहिए ताकि हम जो बाइडन के खिलाफ तैयारी कर सकें और जो धन और समय इन डिबेट्स में लग रहा है, उसका इस्तेमाल जो बाइडन को हटाने के लिए कर सकें।' श्रमिकों को लुभाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप बता दें कि जहाँ एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार

जनसमर्थन पाने के लिए डिबेट कर रहे थे, तो वहीं ट्रंप मिशन में एक अंटी पार्टीस उत्पादन प्लांट के वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि अंटी विनिर्माण क्षेत्र के वर्कर्स इन दिनों जो बाइडन सरकार से नाराज हैं और ट्रंप इस श्रमिक वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट में उम्मीदवारों के निशाने पर रहे ट्रंप वहीं कैलिफोर्निया में डिबेट के दौरान निककी हेली और रोस देसातिस ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला। देसातिस ने

ट्रंप के डिबेट में हिस्सा नहीं लेने की आलोचना की। देसातिस ने ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना की। वहीं निककी हेली ने चीन नीति को लेकर ट्रंप को निशाने पर लिया। निककी हेली ने कहा कि वह चीन से व्यापार पर फोकस नहीं करते कि चीन के लोग हमारी जमीन खरीद रहे हैं और वह अमेरिकी लोगों को मार रहे हैं। ट्रंप इस बात पर फोकस नहीं करते कि चीन ने क्यूबा में जासूसी के लिए खुफिया बेस बना लिया है। पहली डिबेट के दौरान विवेक रामास्वामी के नाम की खूब चर्चा हुई और उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई। दूसरी डिबेट में निककी हेली और अन्य उम्मीदवारों ने विवेक रामास्वामी पर भी तीखा हमला बोला। लगातार दूसरी डिबेट से गायब रहे डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में सबसे आगे हैं।

एशियन खेल: बैडमिंटन महिला टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत, मंगोलिया को 3-0 से हराया

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज खिलाड़ी और कई गैंड स्लेम टूर्नामेंट के विजेता लिफेंडर पेस अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 50 वर्षीय पेस उन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 2024 के लिए नामांकित किया गया है। खिलाड़ी श्रेणी में उनके अलावा कारा ब्लैक, एना इवानोविच, कार्लोस मोया, डैनियल नेस्टर और फलाविया पेनेटा को नामित किया गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फेंच ओपन का खिताब जीतने वाली चीन की खिलाड़ी ली ना 2019 में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी बनी थी। पेस ने कहा कि यह मेरे लिए काफी मायने रखता है कि मैं खिलाड़ियों की श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाला एशिया का पहला खिलाड़ी हूँ।

क्रिकेट विश्व कप : 'मैं इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता', तमीम के बयान पर शाकिब का पलटवार

ढाका। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की और इसमें से एक सबसे बड़ी घटना अनुभवी सलामी बल्लेबाज तमीम शकबाब की चूक थी। टीम में चुकने पर तमीम ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार हैं तो मुझे मत भेजना। मैं इस झण्ड में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप मुझे हर दिन किसी नई चीज से रुबरु कराते हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इस पर अब शाकिब ने पलटवार किया है और करार जवाब दिया है। जुलाई में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाएँ हाथ का खिलाड़ी बांग्लादेश का कहान था। हालाँकि तमीम ने प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ परामर्श करने और यू-टर्न लेने से पहले श्रृंखला के बीच में संन्यास लेने का फैसला किया। इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एशिया कप 2023 और उसके बाद के विश्व कप के लिए शाकिब अल हसन को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। तमीम और शाकिब के बीच हाल के दिनों में उदार-चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं। पीठ की चोट के कारण एशिया कप से चुकने के बाद पूर्व खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की श्रृंखला में खेला था।

सऊदी अरब के खिलाफ एकजुट होकर खेलने की जरूरत: सुनील छेत्री

हांगकॉंग। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को लगता है कि अगर उन्हें गुरुवार को यहां एशियाई खेलों के राउंड 16 मैच में मजबूत सऊदी अरब की टीम को चुनौती पेश करने है तो उन्हें एकजुट इकाई के तौर पर खेलना होगा। छेत्री हांगकॉंग में टीम के मौजूद अभियान में भारत की समस्याओं से वाकिफ हैं और सऊदी अरब के खिलाफ भारत के छात्र रिपोर्टों के साथ परिष्कृत एशियाई टीम की मजबूती को भी अच्छे तरह जानते हैं। उनका मानना है कि अगर टीम अपनी सही रणनीति पर ठोड़ी रही और उनके युवा साथी एकजुट होकर खेलना जारी रखेंगे तो यह प्री क्वार्टरफाइनल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि हमारे कोच ने सऊदी अरब टीम के यहां के मैचों के अलावा पिछले कुछ मैचों के काफी क्लिप हमें दिखाये हैं। उन्होंने हमें खेलने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताया है। छेत्री ने कहा कि उनकी टीम काफी मजबूत है जिसमें काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिससे पूरी टीम जानदार है। सऊदी अरब प्रीफा रैंकिंग में 57वें स्थान पर काबिज है और हमेशा ही भारत (102 रैंकिंग) के खिलाफ हारवी रही है। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों में सऊदी अरब ने 18 गोल दोगे हैं जबकि भारत दो ही गोल कर सका है। दोनों टीमों के बीच एशियाई खेलों में पिछले भिड़ंत में सऊदी अरब नई दिल्ली में 1982 क्वार्टरफाइनल में एकमात्र गोल से विजेता रही थी। हांगकॉंग में भारत ने तीन मैच खेले हैं।

स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने से थोड़ा दुखी हूं : रोशिबिना देवी नाओरेम

नई दिल्ली। वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने कहा कि एशियाई खेलों में रजत पदक जीतकर उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वर्ण पदक न जीत पाने से वह थोड़ा दुखी हैं। रोशिबिना देवी ने भारतीय खेल प्राधिकरण (सई) मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे रजत पदक जीतकर अच्छा लग रहा है लेकिन मैं स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने से थोड़ा दुखी भी हूँ। मैंने इस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैं इसे सुभास्नी। मैंने इस खेल में कर्तव्यों की ओर बेहतर खेला। मैं नवंबर में आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और देश के लिए पदक जीतने की कोशिश करूंगी। रोशिबिना देवी के कोच कुलदीप हांडू ने साई मीडिया से कहा, -उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था क्योंकि पिछले साल उन्होंने कांस्य पदक जीता था। हालाँकि, हमें सोने की उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी कमी रह गई। हम विश्व चैंपियनशिप से पहले कमियों पर काम करेंगे और वह वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। रोशिबिना देवी देवी ने भारतीय उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बुधवार को वुशु 60 किग्रा फाइनल में प्रवेश किया और भारत के



लिए एक और पदक पक्का किया। रोशिबिना देवी फाइनल में घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी जियाओवेई वू से 2-0 से हार गईं।

एशियाई खेल शूटिंग: भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण



हांगकॉंग। एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। सरबजोत सिंह, शिव नरवल और अर्जुन सिंह चौधरी की भारतीय हिफ्टी ने कुल 1734 के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। जबकि चीन ने 1733 अंकों के साथ रजत पदक जीता। वहीं प्यितनम ने 1730 के साथ कांस्य पदक जीता। सरबजोत (580) और अर्जुन (578) क्रमशः 5वें और 8वें स्थान पर रहे और व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालीफाई किया जो आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा। शिवा (576) 14वें स्थान पर रहे। बता दें कि भारतीय निशानेबाज अब तक एशियाई खेलों में चार स्वर्ण सहित 13 पदक जीत चुके हैं। वहीं भारतीय शूटरी में अब तक 24 पदक आ चुके हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, आठ रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं।

एशियाई खेल:रतुराज के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम चीन खाना

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम अपने बहुप्रतीक्षित एशियाई खेलों के लिए गुरुवार को भारत से चीन के लिए खाना हो गई है। भारतीय टीम 3 अक्टूबर को अपना अभियान शुरू करेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने टीम इंडिया की मुंबई एयरपोर्ट से चीन के लिए उड़ान भरने की तस्वीरें साझा की। साई मीडिया ने एक्स पर लिखा, पुरुष क्रिकेट टीम एशियन खेलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम इंडिया ने एशियन खेलों में अपने बहुप्रतीक्षित अभियान के लिए

मुंबई हवाई अड्डे से हांगकॉंग के लिए उड़ान भरी है। हम उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आईसीसी टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पांच स्थान वाली टीमों में हैं, इसलिए इन्हें सीधे क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश दिया गया है। रतुराज गायकवाड़ को एशियाई खेलों में भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यशस्वी जयसवाल को भी टीम में जगह मिली है। शिवम दुबे जो



आइपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य क्रम की बल्लेबाजी

(सीएसके) की रीढ़ थे, उन्हें एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में वापस बुलाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में दमदार प्रदर्शन के बाद रिंकु सिंह को भी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अपने शानदार आईपीएल प्रदर्शन के दम पर विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा और प्रभसिंहर सिंह ने भी टीम में जगह बनाई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम: रतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, राहुल जिराडी, तिलक यर्म, रिंकु सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिष्ठन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि विरनाई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे और प्रभसिंहर सिंह (विकेटकीपर)। खिलाड़ियों की स्टैंडबाय सूची: यश ठाकुर, साई किशोर, वैकेश अय्यर, दीपक हुडा और साई सुदर्शन।

भारतीय पुरुष टीम ने 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

हांगकॉंग। भारतीय तैराक तनिष जॉर्ज मैथ्यू, विशाल शेवाल, आनंद एएस और श्रीहरि नटराज गुरुवार को एशियाई खेलों में पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए अपनी हीट में 3:21.22 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय निकाला। पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के फाइनल आज शाम 6:18 बजे शुरू होगा। तनिष, श्रीहरि और आनंद 2019 एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 3:23.72 के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड का भी हिस्सा थे। महिलाओं की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम ने भी 8:39.64 के समय के साथ हीट में आठवें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई। ये शाम 6:36 बजे पदक के लिए तैरेंगे। इससे पहले, एशियाई खेलों में पुरुषों की 4x100 मीटर मेडल रिले में श्रीहरि नटराज, लिक्विथ सेवराज, साजन प्रकाश और तनिष जॉर्ज मैथ्यू ने पुरुषों की 4x100 मीटर मेडल रिले हीट में 3:40.84 का समय लेकर फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया था। चीन से 6.04 सेकंड पीछे, कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहे,



भारतीय चौकड़ी ने 2018 एशियाई खेलों से अर्जित राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारतीय टीम ने हीट में 3:40.84 का प्रभावशाली समय लिया। 4x100 मेडल रिले पुरुष स्पर्धा में लिखा गया समय भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ समय है।

क्रिकेट विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम हैदराबाद पहुंची

हैदराबाद। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारत पहुंच चुकी है। कीवी टीम बुधवार रात हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बुधवार को भारत पहुंची है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच के साथ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा। इस प्रतिष्ठित आवेगन के 13वें संस्करण में कुल 10 टीमों प्रतिष्ठित विश्व कप टूर्नामेंट के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। मेजबान होने के कारण भारत ने सीधे क्वालीफाई किया है जबकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड,

बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सुपर लीग से स्थानों पर 48 मैचों का होगा, जो 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें गत चैंपियन इंग्लैंड का मुकामला आगे बढ़े हैं। क्रिकेट कैलेंडर का पिछले संस्करण के उपविजेता सबसे बड़ा पुरुष आयोजन 10 न्यूजीलैंड से होगा।

तीसरे एकदिवसीय में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया, भारत ने 2-1 से जीती श्रृंखला

राजकोट। ऑस्ट्रेलिया ने राजकोट में खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच में भारतीय टीम को 66 रन से हरा दिया है। हालांकि इस हार के बावजूद भारतीय टीम ने तीन मैचों की श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे एवं अंतिम एकदिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 352 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम 49.4 ओवर में 286 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 31 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस दौरान कप्तान रोहित के साथ बल्लेबाजी के लिए आर्वांशिपटन सुंदर बल्ले के साथ रनों के लिए संघर्ष करते दिखे। वह 30 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोहित ने विजेट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर भारत को स्कोर 100 के पार पहुंचाया। भारत का दूसरा विकेट कप्तान रोहित के रूप में गिरा। रोहित शर्मा ने सीधे शॉट खेले, जिसे सामने गेंदबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने खूब को बचाने के लिए हाथ आगे किया और गेंद उनके हाथ से झटका मूर्यकुमार यादव के रूप में लगा। यह जोश हेजलवुड की गेंद एक-एक विकेट लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जिसे टीम के बल्लेबाजी ने सही साबित किया। टीम ने 50 ओवर में सात विकेट पर 352 रनों का विशाल स्कोर बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से सबसे ज्यादा मिचेल मार्श ने 84 गेंदों पर 3 छक्के और 13 चौकों की मदद से 96 रन बनाए। मार्श के अलावा स्टीव स्मिथ ने 61 गेंदों में 74, मार्नस लाभुसेन ने 58 गेंदों में 72 और डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 56 रन की तेज पारी खेली। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप खटव ने 2 विकेट, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित ने 57 गेंदों में 81 रन की पारी खेली। रोहित के बाद मैक्सवेल ने विराट कोहली को आउट कर भारतीय टीम को एक ओर बड़ा झटका दिया। कोहली 61 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए। यहां से श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। हालांकि अय्यर और राहुल की सझेवरी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मिचेल स्टाई ने केएल राहुल को आउट किया। राहुल 30 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारतीय टीम को पांचवां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का केंद्र बनता जा रहा है। खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अब दूसरे नेशनल ताइकांडो चैंपियनशिप का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। नोएडा के इंडोर स्टेडियम में पांच से आठ अक्टूबर के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। योगी सरकार की खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की नीति का परिणाम है कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की पहली पसंद यूपी बन गया है। ताइकांडो चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एथलीट्स के साथ भारतीय सेना की टीम भी हिस्सा



लेंगी। चैंपियनशिप में महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों को मिलाकर कुल पांच हजार एथलीट्स हिस्सा लेंगे, जो आठ से पचास आयु वर्ग के होंगे। वहीं इस आयोजन में 7500 से ज्यादा

आगंतुकों के आने की उम्मीद है, जिसमें प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा दर्शक आए इसको लेकर सरकार और आयोजकों की तरफ से सोशल मीडिया के विभिन्न टूलस का इस्तेमाल कर जमकर ब्रांडिंग भी की जा रही है। इस बारे में नोएडा ताइकांडो एसोसिएशन की अध्यक्ष आयुषी केकर ने कहा कि इस मेगा इवेंट का स्वरूप भारत में अब तक हुए किसी भी नेशनल ताइकांडो चैंपियनशिप से बड़ा होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए सरकार ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर खिलाड़ियों के लिए क्वार्ट क्लास का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के भोजन, रकने और प्रैक्टिस करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। यही नहीं देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के साथ आने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है।

एशियन गेम्स में मद्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, देश को दिलाए नौ पदक

भोपाल। चीन के हांगकॉ में खेले जा रही 19वीं एशियाई खेलों में मद्र के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को शूटिंग में मद्र के निशानेबाजों ने दो पदकों पर निशाना साधा है। इसी के साथ मद्र के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण, तीन रजत व तीन कांस्य सहित नौ पदक देश को दिलाए हैं। मद्र का यह एशियन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जनसम्पर्क अधिकारी विन्दु सुनील ने बताया कि इस बार मद्र ने छह दिनों में ही अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह का

प्रदर्शन रहा तो हम इस बार 15 पदक के करीब पहुंच सकते हैं। अब तक मद्र अकादमी के निशानेबाजों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। शूटिंग में मद्र ने एक स्वर्ण, दो रजत व दो कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते हैं, इसमें कुछ इवेंट बाकी हैं, जिसमें हमें पदक की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि छोटी उम्र में बड़े कॉर्निमान रच रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल और राजस्थान के दिव्यांश के साथ मिलकर देश को स्वर्ण पदक दिलाया। ऐश्वर्य ने इसी इवेंट के

व्यक्तिगत मुकाबले में भी जोरदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतकर अपने पदकों की संख्या दो की। वहीं, 10 मीटर राइफल महिला टीम इवेंट में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की अशी चौकसे ने हरिकाणा की रमनीता जिंदल व वेस्ट बंगाल की मेहुली के साथ रजत पदक जीता। सुबह मद्र की अशी चौकसे ने 50 मीटर धी पोजीशन व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक जीता। शूटिंग में ही एक रजत पदक 50 मीटर धी पोजीशन पुरुष वर्ग में एस्के रामा और एम कौशिक की जोड़ी ने रजत पदक जीता है।

व्यक्तिगत मुकाबले में भी जोरदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतकर अपने पदकों की संख्या दो की। वहीं, 10 मीटर राइफल महिला टीम इवेंट में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की अशी चौकसे ने हरिकाणा की रमनीता जिंदल व वेस्ट बंगाल की मेहुली के साथ रजत पदक जीता। सुबह मद्र की अशी चौकसे ने 50 मीटर धी पोजीशन व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक जीता। शूटिंग में ही एक रजत पदक 50 मीटर धी पोजीशन पुरुष वर्ग में एस्के रामा और एम कौशिक की जोड़ी ने रजत पदक जीता है।

